



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 48] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 27, 2004—दिसम्बर 3, 2004 (अग्रहायण 6, 1926)

No. 48] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 27, 2004—DECEMBER 3, 2004 (AGRAHAYANA 6, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]—

संघ लोक सेवा आयोग

दिनांक 29 अक्टूबर 2004

नई दिल्ली-110069, दिनांक 14 अक्टूबर 2004

सं. ए-19017/1/01-प्रशा.-1--राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नई दिल्ली में रु. 6500-200-10,500/- के वेतनमान में प्रतिनियुक्ति पर कोर्ट मास्टर के पद पर नियुक्त किए जाने के लिए चयन किए जाने के परिणामस्वरूप श्री रोहतास सिंह, निजी सचिव, के. स. आ. से संवर्ग, संघ लोक सेवा आयोग को दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 (अपराह्न) से आयोग कार्यालय द्वारा कार्यभार से मुक्त किया जाता है और यह निदेश दिए जाते हैं कि वे श्री रघुबीर सिंह, संयुक्त रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, सातवां तल, "बी" विंग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करें।

2. श्री रोहतास सिंह की प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, होगी।

एस. आनन्दन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए. 38014/12/2004-प्रशा.2.--संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में श्रीमती वर्षा मल्होत्रा, ए. सी. (डी. पी.), की अधिवर्षिता की आयु हो जाने पर उन्हें दिनांक 31.10.2004 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

एस. आनन्दन
अवर सचिव (प्रशा.)

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं. डीपी/पर्स.1/2004/0086/3/56/90-पर्स.1.--श्री के. एल. बंसल ने अधिवर्षिता पर 31.10.2004 (अपराह्न) से अपर पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

राजीव सिंह
पुलिस अधीक्षक (मु.)

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 09 नवम्बर 2004

सं. 2/8/04-प्रशा.--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री मित्र सैन, भारतीय सांख्यिकी सेवा (87) को आयोग में उप सचिव के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 01.11.2004 (पूर्वाह) से चार वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

सं. 2/8/04-प्रशा.--केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्वारा श्री रोहित तिवारी, भारतीय वन सेवा (पश्चिम बंगाल : 93) को आयोग में उप सचिव के पद पर वेतनमान रु. 12,000-375-16,500/- में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिनांक 21.10.2004 (पूर्वाह) से चार वर्षों की अवधि तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं।

मांगे लाल
उप सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं. ई. 15013(2)/15/99/कार्मिक.1/2934.--श्री सुदेश कुमार, भापुसे (केएल: 87) उप महानिरीक्षक के औसुब से अपने मूल संवर्ग में प्रत्यावर्तन होने पर दिनांक 28.10.2004 (अपराह) को उप महानिरीक्षक के औसुबल इकाई एचईसी संची के पद का कार्यभार छोड़ दिया है। अधिकारी को नियमानुसार दिनांक 10.11.2004 से 08.01.2005 तक 60 दिनों का अतिरिक्त अवकाश ज्वॉइनिंग टाइम के साथ मंजूर किया है।

(ह./- अपठनीय)
महानिदेशक/के औसुब

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं. ए-32013/1/2002-प्र.-6.--राष्ट्रपति सहर्ष, भारतीय निरीक्षण सेवा (ग्रुप ए) में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारी श्री जे.के. खन्ना को, सेवा के उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड में अपर महानिदेशक के पद पर संशोधित वेतनमान रु. 22,400-525-24,500/- में कार्यभार संभालने की तिथि से यानि 08.11.2004 (अपराह) से नियुक्त करते हैं।

2. श्री जे.के. खन्ना की उपरोक्त नियुक्ति केन्द्र सरकार द्वारा दायर एवं दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिका सं. 67/83, 68/83 एवं 69/83

एवं मुंबई उच्च न्यायालय में दायर तथा दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित डब्ल्यू. पी. सं. 35/83, 3001/83 एवं अन्य कोई याचिका, जो उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण में फीडर ग्रेड में वरिष्ठता से संबंधित मामले में लंबित है, के अंतिम निर्णय पर निर्भर रहेगी।

यशवंत महावर
निदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान

खान मंत्रालय
(भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण)

कोलकाता-700 016, दिनांक 9 नवम्बर 2004

सं. 3242बी/ए-19011(1-एस.के.एन.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी श्री संग्राम केशरी नायक को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक 6.9.2004 के पूर्वाह से प्रभावित नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

सं. 3243बी/ए-19011(1-आर.बी.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी श्री रत्नाकर भाईसल को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में, अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक 28.09.2004 के पूर्वाह से नियुक्त करते हैं।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

सं. 3244बी/ए-19011(1-पी.एस.डी.)/04/19ए--राष्ट्रपति जी श्री प्रशांत साहेबराव धोते को भूवैज्ञानिक (कनिष्ठ) के पद पर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 8,000-275-13,500/- के वेतनमान के न्यूनतम वेतन में, अस्थायी रूप में आगामी आदेशों तक 23.06.2004 के पूर्वाह से नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त नियुक्ति अनन्तिम है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति की स्थिति के सत्यापन के अध्याधीन है।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

सं. 3245बी/ए-19012(1-एन.एन.जी.)/02/19ए--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा श्री एन. नन्दगोपाल को सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 7,500-250-12,000/ के वेतनमान में स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक 05.08.2004 के पूर्वाह्न से प्रभावित नियुक्त किया गया है। उपरोक्त नियुक्ति अनन्तिम है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति की स्थिति के सत्यापन के अध्याधीन है।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 3246बी/ए-19012(1-बी.पी.)/02/19ए--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा श्री बालाजी पी. को सहायक भूवैज्ञानिक श्रेणी-I के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में रुपए 7,500-250-12,000 के वेतनमान के वेतन में स्थानापन्न रूप में आगामी आदेशों तक 09.08.2004 के पूर्वाह्न से प्रभावित नियुक्त किया गया है। उपरोक्त नियुक्ति अनन्तिम है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति की स्थिति के सत्यापन के अध्याधीन है।

एस. के. सिन्हा
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-700016, दिनांक 10 नवम्बर 2004

सं. 2590ए/ए-32014(2-ए.जी.)/1/2000/19बी--महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण श्री विश्वनाथ नस्कर, वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भू-भौतिकी/कार्यशाला) को सहायक भूभौतिकीविद (उपकरण) श्रेणी-I के पद पर पदोन्नति पर हुई नियुक्ति को इसी विभाग में रुपए 7,500-250-12,000/ के वेतनमान में नियमानुसार वेतन पर नियमित आधार पर आगामी आदेशों तक 04.10.2004 (अपराह्न) से प्रभावित अनुमोदित करते हैं।

एस. दास राय
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोथला और खान मंत्रालय
(खान विभाग)
भारतीय खान ब्यूरो
नागपुर, दिनांक 9 नवम्बर 2004
संशोधन

सं. ए-31013(7)/79-स्था. ए--इस कार्यालय के श्री डब्ल्यू. के. सोनटक्के के वरिष्ठ खनन भूवैज्ञानिक के पद पर स्थायीकरण से संबंधित

समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12-10-2001 के अनुसरण में कृपया निम्नलिखित संशोधन राजपत्र अधिसूचना में प्रकाशित करें।

1.4.1988 के स्थान पर कृपया

1.4.1990 पढ़ें।

अन्य प्रविष्टियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

एस. चन्द्रमौली
कार्यालय अध्यक्ष

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून-248001, दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं. सी.-344/1800(1)--निम्नलिखित ग्रुप 'सी' मानचित्रकार डिवीज़न-I को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में उनके नाम के सम्मुख दी गयी तिथि से नियमित आधार पर मुख्य मानचित्रकार ग्रुप 'बी' (राजपत्रित, अलिपिक वर्गीय) के पद पर रुपये 6,500-200-10,500 के वेतनमान में पदोन्नति की जाती है:--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री जी.वी. अप्पा रॉव	13.09.2004
2.	श्री आर.एन. ठाकुर	30.08.2004
3.	श्री यू.एन. डोभाल	01.10.2004
4.	श्री रुद्र बहादुर	27.08.2004
5.	श्रीमती के.डी. राठोर	27.08.2004
6.	श्री अमरीक सिंह	01.09.2004
7.	श्री वी.सी. सेकरम (अप.)	31.08.2004
8.	श्रीमती निला सैमगुप्ता	26.08.2004
9.	कु. शिवानी घोष (पी.एच.)	27.08.2004
10.	श्री डी. माझी (अनुसूचित जन जाति)	21.09.2004
11.	श्री श्याम सिंह (अनुसूचित जाति)	27.08.2004
12.	श्री डी.पी. पवार (अनुसूचित जाति)	01.09.2004
13.	श्री एस.पी. कुमार	27.08.2004
14.	श्री कुलवन्त सिंह	26.08.2004
15.	श्री जे. एस. कुकरेजा	27.08.2004
16.	श्री सत्य नारायण	27.08.2004
17.	श्री जे.पी. ध्यानी	27.08.2004
18.	श्री इन्दर स्वरूप	25.10.2004

डॉ. पी. नाग
भारत के महासर्वेक्षक

सं. सी-366/718-ए--निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग में स्थापना एवं लेखा अधिकारी (सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'बी') के पद पर रुपये 7,450-225-11,500 के वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख दर्शायी गई तिथि से नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है:--

क्रम सं.	नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री तुफानी राम (अनुसूचित जाति)	01.09.2004
2.	श्री खेम राज सेठी	01.11.2004

डॉ. पी. नाग
भारत के महासर्वेक्षक

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय

फरीदाबाद-121001, दिनांक 10 नवम्बर 2004

सं. 7-7/2004-प्रशा. प्रथम--भारत सरकार के वनस्पति संरक्षण सलाहकार ने श्री एस.पी. सिंह को दिनांक 21.10.2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक 6500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में नियमित अस्थायी आधार पर इस निदेशालय में वनस्पति संरक्षण अधिकारी (कीट विज्ञान) के पद पर नियुक्त किया है।

मोहन प्रकाश

उप सचिव एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-400085, दिनांक 10 नवम्बर 2004

सं. पीडी/8161/2003-आर-4/1311--राष्ट्रपति, निम्नलिखित व्यक्तियों को भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों ग्रेड 'सी' के पद पर रु. 8000-275-13500 के वेतनमान में, 1 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से, श्री सुदर्शनधारी शिवानी विल्सन, क्रम संख्या 86 जिनकी नियुक्ति तिथि 6 सितम्बर 2004 के पूर्वाह्न से है, को छोड़कर, आगामी आदेशों तक अस्थाई रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम
1	2
1.	राम चन्द्रम
2.	राज कुमार
3.	चेटलपल्लि वेंकट सत्यनारायण राजु
4.	बि. सुरेन्द्र
5.	बालाजी प्रसाद मंडल
6.	आलोक कुमार सक्सेना
7.	राजेश बरनवाल
8.	दिवाकर गोस्वामी

1	2
9.	जितेन्द्र वीर सिंह
10.	गौरव वाष्णीय
11.	शंकरन सुन्दर राजन
12.	आलोक कुमार
13.	विकास कुमार श्रीवास्तव
14.	अभिजीत राहा
15.	दुर्गेश ओम प्रकाश मिश्रा
16.	अदिति चक्रवर्ती
17.	मेनका टेवानी
18.	रामकृष्णा इलपंडा
19.	संगीता धारा
20.	गज्जर नीकुंज भरत
21.	ए. रेक्स
22.	सुधांशु सक्सेना
23.	आरती अग्रवाल
24.	पटेल तरुणकुमार प्रफूलभाई
25.	पं. अरविन्द बाबु
26.	हेमंत कुमार पाटनी
27.	पार्थ सारथि माइति
28.	रचना अग्रवाल
29.	चित्रा सीताराम
30.	अभिषेक मुखर्जी
31.	अमित प्रकाश श्रीवास्तव
32.	उपेन्द्र कुमार सिंह शेखावत
33.	पौलोमी मुखर्जी
34.	शंकर प्रसाद कोईरी
35.	धीरज जैन
36.	पीयूष जैन
37.	योगेश कुमार गुप्ता
38.	गंगाधर हुद्दार
39.	प्रसाद प्रदिप कारखानीस
40.	अमरेश मिश्रा
41.	राजीव कुमार गुप्ता
42.	तारिक अहमद मीर
43.	राज किसोर लेंका
44.	प्रवीण कुमार यादव
45.	पान्डियन प्रदीप सौंदरा
46.	राजन कुमार सिंह

1	2
47.	क्षेत्रमोहन साहू
48.	लोरी रस्तोगी
49.	सोम नाथ घोष
50.	अरूप कुमार पाठक
51.	छवि अग्रवाल
52.	विमल पारखिया
53.	अर्नब दासगुप्ता
54.	सत्यजित रे
55.	कुमार राजा मच्चा
56.	विजय कुमार एम
57.	प्रवीन जोशी
58.	मोहम्मद औसाफ
59.	जोषी रितेशकुमार अजीतराय
60.	अंसार अहमद
61.	सुधीर कुमार
62.	राजीव दास
63.	अर्गला श्रीवास्तव
64.	सतीनाथ घोष
65.	सुभासिस गुइन
66.	सचिन गजानन म्हात्रे
67.	जयश्री बिश्वाल
68.	अनीता गुप्ता
69.	कृष्ण कुमार पाण्डेय
70.	अनिल जैन
71.	चन्द्राणी भट्टाचार्य
72.	सोमाली फणी
73.	मालुसरे मंगेश मारुती
74.	जोषी हिरन मुकंदराय
75.	सौरभ मोइत्रा
76.	अभिजित रविन्द्र टिल्लू
77.	संदीप पांडुरंग पाटील
78.	गुर्रम चेन्न केशवुलु
79.	एन. काशी विश्वेश्वरा राव
80.	सतेन्द्र कुमार
81.	देवेश चौहान

1	2
82.	अमिक सील
83.	पार्थ प्रतिम धर
84.	विपिन गुप्ता
85.	प्रसाद राव जंगम
86.	सुदर्शनधारी शिबानी विल्सन
87.	कुलदीप शर्मा
88.	केशव बवेजा
89.	देवरंजन दास
90.	नागराज अलंगी
91.	अजय कुमार
92.	विनय प्रकाश पाण्डेय
93.	राम दयाल
94.	तम्मना श्रीरामा चंद्र मूर्ति
95.	मोहित कुमार
96.	आलोक कुमार विश्नीई
97.	आकाश शर्मा
98.	कॉट्यकटर अंकुर दीपकभाई
99.	शुभंकर मान्ना

डॉ. जी. डी. पुंगले
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं. 7/2(1)/2004-एसयूएस/7764--राष्ट्रपति, इस विभाग के निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय के निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति पर उनके नाम के सामने उल्लिखित दिनांक से उसी यूनिट में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/एफ के ग्रेड में नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख
01.	श्री ए. एन. कृष्णकुमार	01.08.2004 (पूर्वाह्न)
02.	श्री एम. पी. रेगे	01.08.2004 (पूर्वाह्न)
03.	श्री वी. सुधेन्द्र	01.08.2004 (पूर्वाह्न)
04.	श्री बी. एन. आर. प्रसन्ना	01.08.2004 (पूर्वाह्न)
05.	श्री के. एम. दास	01.08.2004 (पूर्वाह्न)
06.	श्री के. शिवप्रकाश	05.08.2004 (पूर्वाह्न)

डी. सुरेन्द्रन
अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद

मुंबई-400094, दिनांक 08 नवम्बर 2004

संदर्भ: पञ्चनित/प्रशा/II/10(I)/7951--अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद ने श्री कवि उप्रेती, वैज्ञानिक सहायक (सी) (वेतनमान रुपये 6,500-200-10,500/-) को इस परिषद में दिनांक 01 अगस्त, 2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक वैज्ञानिक अधिकारी (एसबी) (वेतनमान रुपये 7,450-225-11,500/-) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

एन. एस. नायर
प्रशासन अधिकारी-III

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 5 नवम्बर 2004

सं. निसेसंप्रनि/1 (123)/2003-भर्ती/खंड-III/367--निदेशक, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा श्री वी. आर. बडदे, सहायक सुरक्षा अधिकारी (बी) को इस निदेशालय में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान पर दिनांक 25.10.2004 के (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक सुरक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. वी. नायर
प्रशासन अधिकारी-III

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 2 नवम्बर 2004

सं. ए.एम.डी.-4/2/2004-भर्ती--राष्ट्रपति महोदय, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/इंजीनियरों को उनके नाम के सामने लिखित तारीख से आगामी आदेशों तक इसी निदेशालय में रु. 14,300-400-18,300/- के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी/एफ के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	पदोन्नत ग्रेड	धारित स्थायी पद	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	(सर्वश्री)				
1.	अर्जुन प्रसाद	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01-08-2004
2.	पी. के. कोठारी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
3.	पदमानाभ साहू	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
4.	डॉ. ए. प्रबाकर राव	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
5.	एस. वी. एस. रेड्डी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01-08-2004
6.	एन. सत्यनारायण	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
7.	वी. अनिल कुमार	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
8.	डॉ. एस. एन. चतुर्वेदी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
9.	डॉ. एम. नागराजू	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
10.	डॉ. अरुण कुमार सिंह	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01-08-2004
11.	डॉ. पी. के. तरफदार	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01-08-2004
12.	डॉ. (सुश्री) ज्योत्सना छाबड़ा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
13.	डॉ. (सुश्री) मधुपर्णा राय	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
14.	आर. मामल्लन	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
15.	वी. वी. रेड्डी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01-08-2004
16.	डॉ. मिथिलेश शर्मा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
17.	के. के. पांडे	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
18.	वी. के. श्रीवास्तव	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
19.	अंजनी कुमार वर्मा	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01-08-2004
20.	मयंक अगरवाल	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-बी (वैज्ञानिक)	01-08-2004
21.	टी. देशपति	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
22.	जी. बी. राउत	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
23.	बी. के. त्रिपाठी	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
24.	विवेक बिस्ट	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004
25.	प्रखर कुमार	वैज्ञा. अधि.-ई	वैज्ञा. अधि.-एफ	ग्रुप-ए (वैज्ञानिक)	01-08-2004

आर. एम. सिन्हा
निदेशक

अन्तरिक्ष विभाग

विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र

तिरुवनंतपुरम-695022, दिनांक 2 नवम्बर 2004

सं. वी.एस.एस.सी./स्था/एफ/1 (17)--निदेशक, विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र (वी एस एस सी) एतद्वारा निम्नलिखित तकनीक सहायक 'ग' को पदोन्नति पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में वैज्ञानिक/इंजीनियर 'एस बी' के पद पर विक्रम साराभाई अन्तरिक्ष केन्द्र में तारीख 01-10-2004 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं।

क्रम सं.	नाम	प्रभाग
01.	श्री सुरेशकुमार आर एस	एस डी ई डी
02.	श्री कुंचेरिया पी टी	आर पी पी
03.	श्रीमती शैलजा देवी एस ए	क्यू आइ डी

ए. के. सोमशेखरन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

अन्तरिक्ष विभाग

मुख्य नियंत्रण सुविधा

हासन-573201, दिनांक 4 नवम्बर 2004

सं. एम. सी. एफ. : प्रशा. 31/01--निदेशक, मुख्य नियंत्रण सुविधा, अन्तरिक्ष विभाग हासन श्री पी. रघुचन्द्र भट्ट को पदोन्नति द्वारा मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान पर 'वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस.बी.' के पद पर स्थानापन्न रूप में जुलाई 01, 2004 से आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

बी. अनिल कुमार
सहा. प्रशा. अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल
कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स आराधना सिनटैक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर, दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं. एल.सी (560)एस.ई.एस./10239/7654--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि मैसर्स आराधना सिनटैक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

एम. आर. गुप्ता
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल, कानपुर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स इंडियन ज्यूडिशियल रिपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जयपुर-302006, दिनांक 8 नवम्बर 2004

सं. आर.ओ.सी/560/1511--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त कम्पनी मैसर्स इंडियन ज्यूडिशियल रिपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्ट्रार से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

वी. के. खूबचन्दानी
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
राजस्थान, जयपुर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

पटना-800001, दिनांक 29 अक्टूबर 2004

सं. क.र./पैट/एस.ई.एस./560(5)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 19 कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	7609	मैसर्स पटना मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड
2.	8658	मैसर्स नेटवर्क सिस्टम्स प्रा. लिमिटेड
3.	9265	मैसर्स क्लासिक होलडिंग्स प्रा. लिमिटेड
4.	9268	मैसर्स अस्तोका होलडिंग्स प्रा. लिमिटेड
5.	4014	मैसर्स रिजेन्सी मिनेरल्स प्रा. लिमिटेड
6.	6527	मैसर्स बीएससी ग्रेनाइट प्रा. लिमिटेड
7.	8184	मैसर्स बिजनेस इन्वियरिंग प्रा. लिमिटेड
8.	1991	मैसर्स देवसरन सर्विस सेंटर प्रा. लिमिटेड
9.	3429	मैसर्स ए के कंसट्रक्शन कम्पनी प्रा. लिमिटेड
10.	6909	मैसर्स एकसेलसियस कम्प्यूनिक्शन्स प्रा. लिमिटेड
11.	0556	मैसर्स ग्रेनाइट क्वारिज प्रा. लिमिटेड
12.	4185	मैसर्स दादाजी वील्स प्रा. लिमिटेड
13.	5069	मैसर्स आर.वी.एस. रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग इंडिया लिमिटेड
14.	5053	मैसर्स डी.के. राय एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड
15.	2939	मैसर्स एनुकेशनल फ्लिसर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स (इंडिया) लिमिटेड
16.	5425	मैसर्स ग्राफ़िक्स ओवरसीज लिमिटेड

1	2	3
17.	3058	मैसर्स श्री अनंत कैटल फीड प्रा. लिमिटेड
18.	2039	मैसर्स व्यापार भारती प्रा. लिमिटेड
19.	6449	मैसर्स महाकाल हाउसिंग एण्ड लीजिंग फाइनांस प्रा. लिमिटेड
जे. के. जॉली कम्पनी रजिस्ट्रार बिहार एवं झारखंड		

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

चेन्नै, दिनांक 22 जुलाई 2004

सं. 3196 से 38748/560(5)/2004, दिनांक 22 जुलाई 2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा 5 के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्रम सं.	रजिस्ट्रेशन सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3196	मैसर्स बेनकुलम रबर्स लिमिटेड
2.	7966	मैसर्स अनीना एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
3.	14318	मैसर्स होटल पैनिनसूला (प्रा.) लिमिटेड
4.	14359	मैसर्स रेकटीड्यूड फिनेन्स (प्रा.) लिमिटेड
5.	14732	मैसर्स राज पेट्रोकेम (प्रा.) लिमिटेड
6.	15275	मैसर्स प्रेसीडेन्सी चिट्स (प्रा.) लिमिटेड
7.	15989	मैसर्स प्लेटीनम जुबली प्रिन्टर्स (प्रा.) लिमिटेड
8.	16182	मैसर्स गोपीका एग्रो प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
9.	18977	मैसर्स रामकन स्टील्स (प्रा.) लिमिटेड
10.	20049	मैसर्स डुगार एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
11.	20214	मैसर्स थन्गामणी टैक्सटाईल मिल्स (प्रा.) लिमिटेड
12.	22669	मैसर्स एस.जी.आई. पैक एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
13.	22021	मैसर्स फोरम फार लीगल स्टडीस (प्रा.) लिमिटेड
14.	22028	मैसर्स तमिलनाडू जेम्स लिमिटेड
15.	22054	मैसर्स वासवी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
16.	22669	मैसर्स एस.ए.ई.जी. पैक एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
17.	23160	मैसर्स सन्टेक कन्सलटेंसी एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (प्रा.) लिमिटेड
18.	24371	मैसर्स चन्द्रन फिनान्स (प्रा.) लिमिटेड

1	2	3
19.	24626	मैसर्स श्रेयास हाउसिंग (प्रा.) लिमिटेड
20.	24968	मैसर्स चारी इंजिनियरिंग कंसलटेंट्स (प्रा.) लिमिटेड
21.	25949	मैसर्स एस.जे.एस.बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
22.	28372	मैसर्स थेनकुमारी बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
23.	28454	मैसर्स पुलीकेन मैरिन प्रोडक्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
24.	29466	मैसर्स साऊथ इंडिया मेटल एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड
25.	30235	मैसर्स बालाजी टी. एण्ड स्पार्सेज (प्रा.) लिमिटेड
26.	30397	मैसर्स पारी फीनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स (प्रा.) लिमिटेड
27.	30839	मैसर्स वी फार यू बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
28.	31980	मैसर्स यूनाइटेड लेण्ड मार्केटिंग कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड
29.	33665	मैसर्स जैयम् सोले एण्ड प्रापर्टीज (प्रा.) लिमिटेड
30.	33730	मैसर्स मागडु बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
31.	34757	मैसर्स एस. आर. एम. सी. साफ्टवेयर लिमिटेड
32.	36235	मैसर्स सकथेरन एग्रो फार्म्स (प्रा.) लिमिटेड
33.	36375	मैसर्स आर. एस. आर. बेनिफिट फण्ड (प्रा.) लिमिटेड
34.	36711	मैसर्स श्री दत्ता पॉवर सिस्टम्स (प्रा.) लिमिटेड
35.	37380	मैसर्स मार्स मिन्नाक (प्रा.) लिमिटेड
36.	38745	मैसर्स सेटर्न साफ्टवेयर एण्ड एक्सपोर्ट्स (प्रा.) लिमिटेड

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

चेन्नै, दिनांक 27 जुलाई 2004

सं. 18048 से 48112 तक/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों के नाम रजिस्ट्रार से काट दिये गये हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं।

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	18048	मैसर्स आशा विजिनेस प्रा. लिमिटेड
2.	18329	मैसर्स वेल हाईड्रोलिक मशीन्स प्रा. लिमिटेड
3.	18989	मैसर्स अम्बाक पोलिमर्स प्रा. लिमिटेड
4.	21272	मैसर्स ए.वी.एम. हाउसिंग प्रा. लिमिटेड
5.	26944	मैसर्स अभया रुस्तम फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लिमिटेड
6.	28047	मैसर्स कोन्गुनाडू बेनिफिट फण्ड्स लिमिटेड

1	2	3
7.	29965	मैसर्स साय लियो बेनिफिट फण्ड प्रा. लिमिटेड
8.	30841	मैसर्स गलेसियर्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड
9.	31255	मैसर्स प्राइम सिटी फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड
10.	32419	मैसर्स सिम्टेक आये कण्ट्रोल प्रा. लिमिटेड
11.	32585	मैसर्स लेटेरल एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड
12.	33586	मैसर्स रेनबो शेल्टर्स प्रा. लिमिटेड
13.	34463	मैसर्स सदरन आयुर्वेदिक फार्मुलेशंस एण्ड एक्स्ट्रेक्ट्स प्रा. लिमिटेड
14.	35967	मैसर्स श्री वैकटेश केपिटल एण्ड मैनेजमेंट सर्विसेस लिमिटेड
15.	37379	मैसर्स फोटो कम्प्यूटर्स प्रा. लिमिटेड
16.	36214	मैसर्स मलघोष इन्वेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
17.	37031	मैसर्स इन्ट्रेप्रेण्ड आर्गेन ट्रांसप्लांट इन्स्टीट्यूट प्रा. लिमिटेड
18.	37793	मैसर्स गोल्डमाइन प्रिन्ट्स एण्ड डिजाइन्स प्रा. लिमिटेड
19.	40092	मैसर्स श्री देवनाथ प्रोपर्टीज प्रा. लिमिटेड
20.	41411	मैसर्स कुन्धा कन्सोर्टियम प्रा. लिमिटेड
21.	41880	मैसर्स टैकनेट कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लिमिटेड
22.	41903	मैसर्स रासी ब्ल्यूमेटल्स प्रा. लिमिटेड
23.	42423	मैसर्स के. यू. बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड
24.	42752	मैसर्स इन्टरनेशनल ओशियन मूवर्स प्रा. लिमिटेड
25.	43112	मैसर्स टी.वी.आर. एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड

वी. स्वामीदासन
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 27 जुलाई 2004

सं. 10940 से 47864 तक/560(5)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	10940	मैसर्स स्कन्हा फाइनेन्स कं. प्रा. लिमिटेड
2.	11213	मैसर्स सेन्थूर एग्रो फार्मस प्रा. लिमिटेड
3.	12127	मैसर्स तमिलनाडु मरिनप्लास्ट प्रा. लिमिटेड
4.	13499	मैसर्स रेमी इस्टेट्स प्रा. लिमिटेड

1	2	3
5.	15607	मैसर्स बालामुरुगन फाइनेन्स व इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड
6.	15863	मैसर्स केम पेन्ट्स व थिन्स प्रा. लिमिटेड
7.	18049	मैसर्स ओमकार एग्री बिजनेस प्रा. लिमिटेड
8.	19099	मैसर्स चालुक्या फाइनेन्स लिमिटेड
9.	20367	मैसर्स विष्णुचक्रा गियर्स प्रा. लिमिटेड
10.	23525	मैसर्स न्यूक्लियस फाइनेन्स व इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
11.	26282	मैसर्स हाइवे बेनिफिट फण्ड लिमिटेड
12.	27083	मैसर्स मनाली फाईनेंशियल होल्डिंग्स प्रा. लिमिटेड
13.	28261	मैसर्स अल्फा रबर कम्पोजेन्ट्स प्रा. लिमिटेड
14.	28332	मैसर्स कोटाडाइन मिनरल वाटर प्रा. लिमिटेड
15.	30440	मैसर्स आईबेक्स.वेली रिसोर्ट्स व होटल लिमिटेड
16.	32607	मैसर्स लोकेश पेपर मिल्स लिमिटेड
17.	31310	मैसर्स आरुशी सिक्यूरिटीज प्रा. लिमिटेड
18.	32816	मैसर्स ट्रेवल आरकेड इंडिया प्रा. लिमिटेड
19.	33156	मैसर्स चालुकिया ऐनिमल फार्मस प्रा. लिमिटेड
20.	33157	मैसर्स चालुकिया प्लांटेशंस प्रा. लिमिटेड
21.	34400	मैसर्स सदाची अम्बालवा मल्टी एगो कं. लिमिटेड
22.	35076	मैसर्स फी-अल्फा इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड
23.	36615	मैसर्स नांजिल फाइनेन्स प्रा. लिमिटेड
24.	36720	मैसर्स स्पिक गेलमन साईसेस इंडिया लिमिटेड
25.	37193	मैसर्स काम्पोसिट मैनेजमेंट व फाईनेंशियल सर्विसेज प्रा. लिमिटेड
26.	38948	मैसर्स श्री अंगनन हायर परचेज लिमिटेड
27.	39299	मैसर्स थानायरमूर्थि चिट फण्ड्स प्रा. लिमिटेड
28.	40780	मैसर्स चेन्नई प्लांट इंजीनियर्स प्रा. लिमिटेड
29.	40890	मैसर्स यू.एफ.सी. सिनकान (इंडिया) प्रा. लिमिटेड
30.	42523	मैसर्स जी.ए.वी.एस. प्रापर्टीज प्रा. लिमिटेड
31.	45473	मैसर्स मार्बलज्जार इंडिया प्रा. लिमिटेड
32.	46716	मैसर्स लाइफ गाइडेंस हर्बल प्रा. लिमिटेड
33.	47864	मैसर्स पेरियनायगी ट्रेडिंग कं. प्रा. लिमिटेड

वी. स्वामीदासन
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 27 जुलाई 2004

सं. 7121 से 46003 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गयी हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	7121	मैसर्स कम्प्यूटर्स फार्मस प्रा. लि.
2.	21379	मैसर्स अरद्रा मार्केटिंग प्रा. लि.
3.	23019	मैसर्स रमणीयम होटल्स लि.
4.	24189	मैसर्स सागा मरकेनटाइल प्रा. लि.
5.	26122	मैसर्स ब्रिग्स एक्जूपमेंट्स प्रा. लि.
6.	25678	मैसर्स आइलण्ड एक्वा एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
7.	27095	मैसर्स एफीसस सिस्टम्स व सेल्युलर्स प्रा. लि.
8.	27123	मैसर्स इलगी लीजिंग व फाइनेंस प्रा. लि.
9.	27972	मैसर्स पाम झार्वस एग्रो स्पेशलिटीज प्रा. लि.
10.	28218	मैसर्स श्रेयंस सेक्युरिटीज लि.
11.	29205	मैसर्स मनस्वीनी इन्वेस्टमेंट्स व सेक्युरिटीज प्रा. लि.
12.	29325	मैसर्स परक्कल बायोलाजिकल्स प्रा. लि.
13.	31927	मैसर्स एस. आर. क्रेडिट्स व इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
14.	32873	मैसर्स धयागम बेनिफिट फण्ड लि.
15.	33611	मैसर्स एस. पी. एस. प्रमोटर्स लि.
16.	35137	मैसर्स गोल्डविन ट्रेड लिंक्स प्रा. लि.
17.	35793	मैसर्स अजंथा प्रापर्टीज (इंडिया) प्रा. लि.
18.	35794	मैसर्स कंचना स्ट्रक्चरल्स प्रा. लि.
19.	36257	मैसर्स ए. एच. के. फाइनेंस प्रा. लि.
20.	36770	मैसर्स अलबीस इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लि.
21.	36839	मैसर्स शेरडन कन्टेनर हॉलेज प्रा. लि.
22.	38410	मैसर्स स्पीक फूड्स एण्ड फ्लेवर्स प्रा. लि.
23.	39006	मैसर्स पालुकल कृष्णा बेनिफिट फण्ड लि.
24.	39101	मैसर्स वेक्टर साफ्टवेयर प्रा. लि.
25.	39186	मैसर्स सवेरा नॉरिशमेंट्स प्रा. लि.
26.	39854	मैसर्स टी.वी.एस. 'ई' शॉप्स प्रा. लि.
27.	40514	मैसर्स कबाब फेशन्स प्रा. लि.
28.	43002	मैसर्स दुरंत लीडर सर्व व सोल्यूशन्स प्रा. लि.
29.	45357	मैसर्स साफ्टवेयर पाथफाइंडर्स प्रा. लि.
30.	46003	मैसर्स जीयस डाटा कामर्स प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 27 जुलाई 2004

सं. 6667 से 34461/तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गयी हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	6667	मैसर्स दि कलर टेक्सटाईल मेनुफैक्चर्स एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन लिमिटेड
2.	9931	मैसर्स बच्ची शूज व लेदर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
3.	11855	मैसर्स बाण्ड केमीकल्स प्रा. लि.
4.	14893	मैसर्स माडर्न रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
5.	15314	मैसर्स एम. बी. वेनर्स एंड प्लाईवुड प्रा. लि.
6.	16350	मैसर्स हैक्यू इंजीनियरिंग प्रा. लि.
7.	16696	मैसर्स बीजे मार्केटिंग सर्विसेस प्रा. लि.
8.	16953	मैसर्स अलगप्पा नगर परमानेंट फंड लिमिटेड
9.	17334	मैसर्स श्री मुथालम्पन फाइनेंस प्रा. लि.
10.	21459	मैसर्स पदमा सिलीकेट्स प्रा. लि.
11.	22152	मैसर्स मद्रास नवबाधम बेनिफिट फंड लिमिटेड
12.	22392	मैसर्स अकारिया बिल्डर्स प्रा. लि.
13.	22591	मैसर्स वेदीश्वरन चिट फंड्स लिमिटेड
14.	24260	मैसर्स एसिमार मार्केटिंग प्रा. लि.
15.	24589	मैसर्स एम. एस. हाउसिंग प्रा. लि.
16.	24685	मैसर्स विजया वीडियो प्रा. लि.
17.	26712	मैसर्स मीरा बेनिफिट फंड (सूतकोरिन) लि.
18.	26747	मैसर्स अंजनेया कन्सलटेंट्स प्रा. लि.
19.	27106	मैसर्स श्री के. वी. एन. चिट्स प्रा. लि.
20.	28220	मैसर्स ससी स्पिनर्स प्रा. लि.
21.	29493	मैसर्स ब्रिटो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
22.	30209	मैसर्स एवरग्रीन फाइनेशियल्स प्रा. लि.
23.	31820	मैसर्स कॉंग्स टेली सर्विसेस प्रा. लि.
24.	31768	मैसर्स हेडलाइन सर्विसेस लि.
25.	32074	मैसर्स नाजरेथ फार्मस एण्ड ओरचाईस प्रा. लि.
26.	33048	मैसर्स शानास डेंटल क्लिनिक प्रा. लि.
27.	33297	मैसर्स हाइफलाई फाइनेशियल सर्विसेज प्रा. लि.

1	2	3
28.	34258	मैसर्स साशीवा कन्सलटेंट्स प्रा. लि.
29.	34401	मैसर्स नेटवर्क शिपिंग इण्डिया प्रा. लि.
30.	34461	मैसर्स जेटा हाइटैक प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 854 से 49106 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गयी हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	854	मैसर्स हिन्दुस्तान इन्वेस्टमेंट्स व फाइनेंशियल ट्रस्ट लि.
2.	7946	मैसर्स नोवा कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
3.	9072	मैसर्स रायला फार्म्स व अलाइड इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
4.	10154	मैसर्स पेरगान फलेक्सीबल ट्यूब्स लि.
5.	10207	मैसर्स फिलॉन इंजीनियर्स प्रा. लि.
6.	10415	मैसर्स सुबी टूल्स व ट्रेड्स प्रा. लि.
7.	12961	मैसर्स श्रीनिधि फार्म्स प्रा. लि.
8.	14806	मैसर्स चंद्रा मशीन्स प्रा. लि.
9.	18592	मैसर्स सिम इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स प्रा. लि.
10.	19155	मैसर्स रिबटेक फाइबर (इंडिया) प्रा. लि.
11.	19815	मैसर्स एम.एच.टी. इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
12.	31182	मैसर्स तिरुवन्नामैलाई बेनिफिट फंड लि.
13.	32974	मैसर्स सुभोदया बिल्डर्स प्रा. लि.
14.	34482	मैसर्स इको हाऊसिंग प्रा. लि.
15.	35461	मैसर्स गारडियन बेनिफिट फंड लि.
16.	38696	मैसर्स मद्रास मुथूत बेनिफिट फंड लि.
17.	40175	मैसर्स इन्फो-मेटिक्स टेक्नोनेट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
18.	40256	मैसर्स मंत्रा कन्सलटेंट्स प्रा. लि.
19.	40625	मैसर्स कायथुर इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.

1	2	3
20.	40946	मैसर्स हीकाल इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
21.	41071	मैसर्स क्लारिटी पावर सिस्टम्स प्रा. लि.
22.	41406	मैसर्स डैनाईट्स व ट्रेवल्स प्रा. लि.
23.	41596	मैसर्स सोमाट फाईनेंस लि.
24.	41924	मैसर्स वन्दरटेक साफ्टवेयर सर्विसेस प्रा. लि.
25.	43651	मैसर्स मेट्रो कार्ड्स प्रा. लि.
26.	45414	मैसर्स आयरो साफ्टवेयर सोल्यूशन्स लि.
27.	46020	मैसर्स गुडरिच गार्मेंट्स प्रा. लि.
28.	47197	मैसर्स इडुब्रिज सोल्यूशन्स प्रा. लि.
29.	48802	मैसर्स मुरुगराज इम्पेक्स प्रा. लि.
30.	49106	मैसर्स मेट्रो स्पीड कूल सर्विसेस प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 11281 से 46222 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गयी हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	11281	मैसर्स सध्या रेक्सीन्स प्रा. लि.
2.	11352	मैसर्स डाइटेक्स इंडिया प्रा. लि.
3.	13530	मैसर्स इलेक्ट्रो प्रोसेस इंडस्ट्रीयल केमिकल्स प्रा. लि.
4.	15967	मैसर्स मारविन शू प्रा. लि.
5.	22430	मैसर्स जे.पी. टायर्स सर्विसेस (चेन्नई) प्रा. लि.
6.	25569	मैसर्स आर. आर. अक्वा एग्रो वेन्चर्स प्रा. लि.
7.	26256	मैसर्स रिजल्ट इंजीनियरिंग व ट्रेडिंग (इंडिया) प्रा. लि.
8.	27521	मैसर्स सुजी आटो लि.
9.	27691	मैसर्स सुभिक्षा इन्वेस्टमेंट्स व क्रेडिट प्रा. लि.
10.	28385	मैसर्स मुशै मेरिन फूड्स प्रा. लि.
11.	28765	मैसर्स स्प्रिंगरोज फाईनेंस लि.

1	2	3
12.	28829	मैसर्स नोवल सिस्टम्स लि.
13.	30999	मैसर्स ज्यो लीजिंग व फाइनैस लि.
14.	31527	मैसर्स यूनाइटेड ग्रीन फार्म लैण्ड्स प्रा. लि.
15.	34798	मैसर्स शरीदया इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
16.	34946	मैसर्स लीमसन कंसल्टन्स प्रा. लि.
17.	35663	मैसर्स धरनी ट्रेवल्स प्रा. लि.
18.	37299	मैसर्स राने आटो काम्पोनेन्ट्स (मद्रास) प्रा. लि.
19.	37505	मैसर्स राजश्री इंजीनियरिंग प्रा. लि.
20.	38034	मैसर्स समयुक्ता फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स लि.
21.	38695	मैसर्स मास्टरमाइंड्स साफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रा. लि.
22.	39096	मैसर्स नीला मार्केटिंग प्रा. लि.
23.	41373	मैसर्स एन्टोनी फाइनैस प्रा. लि.
24.	42574	मैसर्स टास्क सिविल इंजीनियरिंग सर्विसेज (चेन्नई) प्रा. लि.
25.	43168	मैसर्स स्ववायर के टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
26.	43819	मैसर्स इनक्यूजीटिव टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
27.	45245	मैसर्स वाइब्रेशन-इंजीनियर्स, काम प्रा. लि.
28.	46222	मैसर्स टेलीकाम जूम, काम प्रा. लि.
29.	43968	मैसर्स एस. एस. मेहता सेफ वाल्ड्स प्रा. लि.
30.	35806	मैसर्स सादर्न ट्रेडिंग (मद्रास) प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नई, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 13718 से 48066 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विघटित हो गयी हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	13718	मैसर्स हैपी फिशरीज प्रा. लि.
2.	14931	मैसर्स फोरसाइट एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
3.	16912	मैसर्स टाप क्लोरेट्स प्रा. लि.

1	2	3
4.	19133	मैसर्स वरटेक्स एक्सपोर्ट्स व इम्पोर्ट्स प्रा. लि.
5.	19198	मैसर्स पल्लवा हायर परचेज कं. प्रा. लि.
6.	21181	मैसर्स बेंचमार्क इंटीरियर्स प्रा. लि.
7.	22664	मैसर्स मनीषा इन्फोर्मेशन प्रासेसिंग सिस्टम्स प्रा. लि.
8.	23098	मैसर्स रेडहिल्स बेनिफिट फण्ड लि.
9.	13569	मैसर्स एन. आर. आई. वेन्वर्स कैपिटल लि.
10.	23119	मैसर्स थिरुमलायान एग्रो प्रा. लि.
11.	23735	मैसर्स यूनिक वेसल्स प्रा. लि.
12.	23783	मैसर्स सुपर प्रोटीन्स प्रा. लि.
13.	24079	मैसर्स इनफिनिट केमिकल्स प्रा. लि.
14.	26526	मैसर्स सत्तूर श्री बालाजी चिट फण्ड्स प्रा. लि.
15.	27082	मैसर्स मनाली प्रोफेशनल सेक्यूरिटीज प्रा. लि.
16.	28796	मैसर्स क्वालिटी हेचरीज प्रा. लि.
17.	29265	मैसर्स ग्रीन वेली रिसर्च लेबोरेटरीज प्रा. लि.
18.	35360	मैसर्स श्री अरविंदा चिट्स प्रा. लि.
19.	44811	मैसर्स नेट्रॉसमिड सोल्यूशन्स (इंडिया) प्रा. लि.
20.	37725	मैसर्स टीटीटी मिल्स प्रा. लि.
21.	38614	मैसर्स विनायक सिलीकेट्स प्रा. लि.
22.	38768	मैसर्स एम एस जे सिलीकेट प्रा. लि.
23.	38946	मैसर्स श्री थिरुमल सिस्टम्स (इंडिया) प्रा. लि.
24.	38962	मैसर्स चेन्नई प्रोटेक इंजीनियरिंग प्रा. लि.
25.	41155	मैसर्स एलायन्स लॉजिस्टिक्स प्रा. लि.
26.	41698	मैसर्स जी. एन. इन्स्ट्रुमेंटेशन व सर्विसेस प्रा. लि.
27.	41791	मैसर्स फर्स्ट चाइस एल्लार सारीज व एसेसरीज प्रा. लि.
28.	42503	मैसर्स डीलमन इन्वेस्टमेंट्स सर्विसेस प्रा. लि.
29.	47931	मैसर्स राजम साफ्टवेयर प्रा. लि.
30.	48066	मैसर्स अक्रेडिट एसोसिएट्स प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चेन्नई, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 6731 से 48056 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विधित्त हो गयी हैं।

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	6731	मैसर्स सिवकामी फाइनेंस प्रा. लि.
2.	11985	मैसर्स एम.एस. इल्लर्स व डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
3.	14197	मैसर्स सानडिलया कंसलटेंट्स प्रा. लि.
4.	15922	मैसर्स मिलानो शूज प्रा. लि.
5.	17045	मैसर्स चोला ग्रानैट प्रा. लि.
6.	19068	मैसर्स के.डी. रब्वर प्राडक्ट्स प्रा. लि.
7.	19410	मैसर्स फैंटसैट सिस्टम्स इंडिया प्रा. लि.
8.	21165	मैसर्स माग्ना हियरिंग सिस्टम्स प्रा. लि.
9.	22343	मैसर्स तिरुवोनम इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
10.	23280	मैसर्स श्री काथायी अम्पन ऐजेन्सी प्रा. लि.
11.	25164	मैसर्स वेट्रन्स हास्पिटल्स प्रा. लि.
12.	28049	मैसर्स दरला सिक्वोरिटिज प्रा. लि.
13.	29145	मैसर्स एम. आर. आर. सिक्वोरिटिज प्रा. लि.
14.	29380	मैसर्स काब्रा सिक्वोरिटिज प्रा. लि.
15.	29605	मैसर्स निरुपानन्दाल बेनिफिट फण्ड प्रा. लि.
16.	29625	मैसर्स रेड्डी कार्स व फायनान्स प्रा. लि.
17.	30377	मैसर्स साधुर श्री राजेश्वरी फायनान्स व लीजिंग प्रा. लिमिटेड
18.	31435	मैसर्स जे. के. इन्वेस्ट लिमिटेड
19.	31600	मैसर्स केयजी सेक्यूरिटीज प्रा. लि.
20.	31787	मैसर्स रेनबो रिसोर्ट्स व फार्मलैण्ड्स प्रा. लि.
21.	31939	मैसर्स अभिनव बेनिफिट फण्ड लि.
22.	33830	मैसर्स विजय चंद्रा फाइनेंस कं. लि.
23.	34173	मैसर्स ग्रीन कन्ट्री फाइनेंस लि.
24.	35507	मैसर्स अरविन्द फार्म हाउस प्रा. लि.
25.	36407	मैसर्स चेन्नई अंडरवाटर वर्ल्ड लि.
26.	38966	मैसर्स कोराटी उन्नामलैममन चिट फण्ड लि.
27.	38975	मैसर्स चिमेरा एस्टेट प्रा. लि.
28.	40111	मैसर्स ब्ल्यू वाटर इंजीनियरिंग प्रा. लि.
29.	40911	मैसर्स श्रीवर्दाराजा साल्ट प्रा. लि.

30.	43193	मैसर्स टन ट्रेडर्स लि.
31.	46081	मैसर्स रेबेका एस्टेट प्रा. लि.
32.	46630	मैसर्स चिमा मेटल प्रा. लि.
33.	46737	मैसर्स एस.वी.एस. एग्रो रिफाइनरीज प्रा. लि.
34.	47230	मैसर्स स्वयम् टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
35.	47984	मैसर्स एक्सलेंट मोन्ट्री व मेनेजमेंट एसोसिएट प्रा. लि.
36.	48190	मैसर्स आर. के. डायमंड व गोल्ड प्रा. लि.
37.	48056	मैसर्स नवीन मल्टीलेवल मार्केटिंग प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 993से 43556तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विधित्त हो गयी हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	993	मैसर्स दि इंडस्ट्रियल केमिकल वर्क्स प्रा. लि. (वेलूर)
2.	4566	मैसर्स साउथ मद्रास रीयल एस्टेट प्रा. लि.
3.	6324	मैसर्स फाइन मेशर इंस्ट्रुमेंट्स लि.
4.	6434	मैसर्स तमिलनाडु इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
5.	6739	मैसर्स मानिकवासगम फाइनेंस प्रा. लि.
6.	7189	मैसर्स एशिया कार्बन लि.
7.	9969	मैसर्स एपोलो रेकजीन्स प्रा. लि.
8.	11350	मैसर्स लिटिल हट इन्वेस्टमेंट कं. लि.
9.	11431	मैसर्स पिपालिया फाइनेंस प्रा. लि.
10.	16031	मैसर्स गुरु श्री शान्ति प्रोडक्शन प्रा. लि.
11.	16394	मैसर्स स्काईसी मार्केटिंग कं. प्रा. लि.
12.	16954	मैसर्स थिरु इनवेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस प्रा. लि.
13.	18424	मैसर्स एमएचटी एयरकंडीशनिंग इंजीनियर्स प्रा. लि.
14.	19624	मैसर्स ए.बी.एल. इनवेस्टमेंट्स प्रा. लि.
15.	20564	मैसर्स अल्फा ऑफिस सिस्टम्स प्रा. लि.

1	2	3
16.	25970	मैसर्स चिन्मयानगर बेनिफिट फंड लि.
17.	26872	मैसर्स मद्रास इंडस्ट्रियल पार्क लि.
18.	28086	मैसर्स कामसन हाइड्रोलिक्स प्रा. लि.
19.	28238	मैसर्स एसआरवी हास्पिटल प्रा. लि.
20.	29952	मैसर्स बोहरा फिनलीज एण्ड सेक्यूरिटीज लि.
21.	30574	मैसर्स ओसियाना क्रोप्स प्रा. लि.
22.	30881	मैसर्स त्रिशना इनवेस्टमेंट्स एण्ड सेक्यूरिटीज प्रा. लि.
23.	31354	मैसर्स सिनगाह प्रोपर्टी डवलपमेंट प्रा. लि.
24.	31766	मैसर्स फीना एग्रो प्रोडक्ट्स लि.
25.	32322	मैसर्स आधु इनवेस्टमेंट्स प्रा. लि.
26.	32573	मैसर्स जयलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
27.	32623	मैसर्स मुगावै बेनिफिट फंड लि.
28.	32662	मैसर्स स्वस्तिक बेनिफिट फंड लि.
29.	33446	मैसर्स होफिन्टेक लोजिस्टिक्स एण्ड साफ्टवेयर सर्विसेज लि.
30.	33658	मैसर्स ए.बी.सी. डिजाइन्स प्रा. लि.
31.	35084	मैसर्स कैसन फाइनेंस एण्ड इनवेस्टमेंट्स प्रा. लि.
32.	35315	मैसर्स विश्रान्थी बिल्डर्स प्रा. लि.
33.	36187	मैसर्स थार पेट्रो गोलड रिफाइनरी लि.
34.	38252	मैसर्स बेनपाल मार्केटिंग प्रा. लि.
35.	38322	मैसर्स गलेक्सी मैनेजमेंट कन्सलटेंट्स (चेन्नई) प्रा. लि.
36.	38505	मैसर्स स्टोन ऐज इंजीनियर्स इंडिया प्रा. लि.
37.	40573	मैसर्स तमिलनाडु पेट्रोकेम पार्क लि.
38.	41052	मैसर्स इनएक्सटेन्सो कोरपोरेट एडवाइजर्स एण्ड टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
39.	43508	मैसर्स टास टेक्नोलॉजीज प्रा. लि.
40.	43556	मैसर्स श्री बृन्दावन बोर्ड मिल्स प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चेन्नई, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं. 5439 से 47957 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम
1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियां विधिवत हो गयी हैं।

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	5439	मैसर्स श्री वेटीवेल चिट फंड प्रा. लि.
2.	11798	मैसर्स एस.बी.एम. व संस फाइनेंसियर्स प्रा. लि.
3.	14825	मैसर्स वेंगैवासल फार्मस प्रा. लि.
4.	18149	मैसर्स मैरी व मैरी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
5.	18436	मैसर्स प्रीटी ग्रेनाइट्स प्रा. लि.
6.	20549	मैसर्स एस. बी.एम. एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
7.	27757	मैसर्स प्रोसपेरिटी बेनिफिट फंड लि.
8.	28574	मैसर्स आत्रेया शेयर्स व सेक्यूरिटीज प्रा. लि.
9.	29961	मैसर्स टी.के.वी. गैन्ड टेक प्रा. लि.
10.	30321	मैसर्स कोठारी हाऊसिंग लि.
11.	30569	मैसर्स टिबमा फार्मस लि.
12.	31520	मैसर्स प्राइड सेक्यूरिटीज प्रा. लि.
13.	33905	मैसर्स टानबेक एग्रो फार्मस व एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
14.	34479	मैसर्स एस.एस.आर. इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
15.	34555	मैसर्स क्वांटम प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
16.	34779	मैसर्स वोक्स फूड प्रा. लि.
17.	35000	मैसर्स टी.वाई. लीन कन्सलटेंट्स (इंडिया) प्रा. लि.
18.	35783	मैसर्स अवनीर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
19.	37450	मैसर्स मामाहम चिट लि.
20.	43532	मैसर्स वर्ल्ड वाइड कारपोरेट कनेक्शन्स प्रा. लि.
21.	44384	मैसर्स टी.वी.एस. चेन्वर फंड प्रा. लि.
22.	44799	मैसर्स जी.एस.एस. इनफोसिस प्रा. लि.
23.	45065	मैसर्स यूनिवर्सल इंटरप्रीनुवर्स व ट्रेडर्स प्रा. लि.
24.	47957	मैसर्स विद्यापोर्टल नेट प्रा. लि.

वी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चैन्नई, दिनांक 29 जुलाई 2004

सं. 29719 से 50115 तक/560 (5)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इस तारीख से निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और निम्न कम्पनियाँ विघटित हो गयी हैं।

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	29719	मैसर्स फ्लो कंट्रोल इंजीनियर्स प्रा. लि.
2.	29723	मैसर्स हनी कोम्ब फार्म्स प्रा. लि.
3.	29930	मैसर्स अथावन फार्म्स व फाइनेंस इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
4.	31000	मैसर्स प्रिया स्पीनर्स प्रा. लि.
5.	32904	मैसर्स बुडपेकर लेदर प्रा. लि.
6.	33354	मैसर्स प्रणव एजेंसी प्रा. लि.
7.	33875	मैसर्स श्रीमंगला एसोसिएट्स प्रा. लि.
8.	35921	मैसर्स स्काईकेब प्रा. लि.
9.	38059	मैसर्स किशाल सिलिण्डर प्रा. लि.
10.	40176	मैसर्स नागापट्टीनम इन्टरप्राइजेस प्रा. लि.
11.	40271	मैसर्स वेलवर्थ इम्पेक्स लि.
12.	42252	मैसर्स पेट्रोनेट सी.टी.एम. लि.
13.	45282	मैसर्स जे.जी. एडवॉंस साफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज़ लि.
14.	45619	मैसर्स ए.ए.ए. शेयर्स प्रा. लि.
15.	44925	मैसर्स महेंद्रा इन्फोटेक सोल्यूशन्स लि.
16.	45772	मैसर्स अलटीमा साफ्टवेयर (इंडिया) प्रा. लि.
17.	47493	मैसर्स ब्लू बर्ड आडियो प्रा. लि.
18.	48881	मैसर्स लक्ष्मी लाकर्स प्रा. लि.
19.	49077	पी.जी.पी. आइल्स प्रा. लि.
20.	50115	रानाडस स्कौलरस वेंचरस प्रा. लि.

बी. स्वामीदासन
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
चैन्नई, दिनांक 8 अक्टूबर 2004

सं. 8348 से 45705 तक/560 (3)/2004--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना

दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और निम्न कम्पनियाँ विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	8348	मैसर्स सोमालींगा मिल्स लि.
2.	13033	मैसर्स ब्राइट ओसन फूड्स लि.
3.	20637	मैसर्स सुन्दरम टू-व्हीलर्स प्रा. लि.
4.	21077	मैसर्स मारकोपोलो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
5.	22628	मैसर्स इन्टीग्रेटेड बेनिफिट फंड लि.
6.	22898	मैसर्स एन.ई.पी.सी. एल.एम. विन्ड एनर्जी लि.
7.	22753	मैसर्स विसवास टेक्नोलॉजीज़ प्रा. लि.
8.	25692	मैसर्स शियाजन एक्सपोर्ट प्रा. लि.
9.	26113	मैसर्स विटको (कोयम्बटूर) प्रा. लि.
10.	27071	मैसर्स हरिवायु बेनिफिट फंड लि.
11.	27723	मैसर्स बी.सी. मारिन इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड एलाइड सर्विसेस प्रा. लि.
12.	27827	मैसर्स तिरुवि श्री आदित्या चिट्स प्रा. लि.
13.	27923	मैसर्स पाम जार्जस एस्टेट प्रा. लि.
14.	31258	मैसर्स माराम्प फाइनेंशियल कन्सलटेंसी प्रा. लि.
15.	33738	मैसर्स फ्राईडफैक्स एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग कन्सलटेंसी प्रा. लि.
16.	29772	मैसर्स सर्वकाला बेनिफिट फंड लि.
17.	12533	मैसर्स ओरिएण्टल बिल्डिंग एण्ड लैण्ड डेवलपमेन्ट कम्पनी लि.
18.	29726	मैसर्स स्ववेयर अक्वा फार्म्स प्रा. लि.
19.	29372	मैसर्स तन्जोर सिकुरिटीज लि.
20.	29746	मैसर्स त्रिविकेश चिट फंड प्रा. लि.
21.	35728	मैसर्स सैन प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
22.	27807	मैसर्स परानी इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
23.	27801	मैसर्स विबा फाइनेन्सियल एण्ड सेक्रेटरीयल सर्विसेस प्रा. लि.
24.	27185	मैसर्स फेनोप्लास्ट मद्रास प्रा. लि.
25.	26582	मैसर्स साई मारुथी बेनिफिट फंड लि.
26.	20080	मैसर्स डी. पी. एस. फाइनेन्स लि.
27.	32587	मैसर्स मैक्सप्रो एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रा. लि.

1	2	3
28.	31222	मैसर्स जगदीश पावर इग्निशन सिस्टम्स प्रा. लि.
29.	29935	मैसर्स सुगन्स बेनिफिट फण्ड लि.
30.	32394	मैसर्स जयकृष्णा चिट्स प्रा. लि.
31.	25944	मैसर्स बालाजी डोमेस्टिक गैसेस (मद्रास) प्रा. लि.
32.	32102	मैसर्स साउथ इण्डिया गोल्ड्स प्रा. लि.
33.	24392	मैसर्स साउदर्न मैट्रो टैवी प्रा. लि.
34.	10370	मैसर्स प्रादिक इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
35.	45705	मैसर्स मैटकोन सेल्स प्रा. लि.

एस. मीनाक्षी
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

कम्पनी अधिनियम 1956 एवं निम्नलिखित कम्पनियों
के विषय में

चैन्नई, दिनांक 13 अक्टूबर 2004

सं. 6005 से 39747 तक/560(3)/2004--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और निम्न कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	6005	मैसर्स वी. के. ट्रेडर्स प्रा. लि.
2.	10897	मैसर्स इस्पी सुगर्स लि.

1	2	3
3.	12316	मैसर्स बारीन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
4.	12450	मैसर्स आर्ती होटेल्स प्राईवेट लि.
5.	13415	मैसर्स अझगर पोलीपैक प्राईवेट लि.
6.	13995	मैसर्स वैष्णवी एक्सपो प्राईवेट लि.
7.	19287	मैसर्स डेबलाइन्स एण्ड एजेन्सीज (साउथ इण्डिया) प्रा. लि.
8.	19358	मैसर्स थेवानगर (मद्रास) फाइनेन्स प्रा. लि.
9.	21140	मैसर्स जेनिथ पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
10.	23132	मैसर्स मेट्रोपोलिस बिजिनेस क्रेडिट्स (मद्रास) प्रा. लि.
11.	24262	मैसर्स स्मार्ट मनी सर्विसेस प्रा. लि.
12.	21912	मैसर्स त्रिस्टेन इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
13.	24549	मैसर्स गोल्डबायर गिल्टेज इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
14.	26992	मैसर्स टी. वी. टी. बेनिफिट फण्ड लि.
15.	29138	मैसर्स प्लेटिनम इलास्टोफिल लि.
16.	31921	मैसर्स पोर कोडी बेनिफिट फण्ड लि.
17.	32433	मैसर्स सुष्ठी फाइनेन्सियल एण्ड सेकुरिटी सर्विसेस लि.
18.	38754	मैसर्स साई सुष्ठी साइबर सिस्टम्स एण्ड कन्सल्टिंग प्रा. लि.
19.	39747	मैसर्स अविनाशी कैटफार्म प्रा. लि.

एस. मीनाक्षी
सहायक कम्पनी पंजीयक
तमिलनाडु

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110069, the 14th October 2004

No. A-19017/1/2001-Admn.-I.—Consequent upon his selection for appointment to the post of Court Master in the National Consumer Disputes Redressal Commission, New Delhi in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-, on deputation basis, Shri Rohtash Singh, Private Secretary of CSSS cadre of UPSC is relieved of his duties in the Commission's Office w.e.f. 14th October, 2004 (A.N.) with instructions to report for duty to Shri Raghubir Singh, Joint Registrar, National Consumer Disputes Redressal Commission, 7th Floor, 'B' Wing, Janpath Bhawan, Janpath, New Delhi.

2. The deputation period of Shri Rohtash Singh will be for three years or until further orders whichever is earlier.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

The 29th October 2004

No. A-38014/12/2004-Admn.-II.—Consequent upon her attaining the age of superannuation, Smt. Varsha Malhotra, Asstt. Controller (DP) in the office of Union Public Service Commission, will stand retired from Government Service with effect from the afternoon of 31.10.2004 (Thirty first October, 2004).

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi-110003, the 9th November 2004

No. DPPERS.-I/2004/0086/3/56/90-Pers.-I.—Shri K. L. Bansal relinquished the charge of the post of Additional Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon of 31.10.2004 (A.N.) on superannuation.

RAJIV SINGH
Supdt. of Police (HQ)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi-110023, the 10th November 2004

No. 2/8/04-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Mitter Sain, I. Stat. S. (87) as Deputy Secretary in the Commission on central deputation in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 01.11.2004 (F.N.) for a period of four years or till further orders whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy.
for Central Vigilance Commissioner

No. 2/8/04-Admn.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Rohit Tiwari, IFS (WB : 93), as Deputy Secretary in the Commission on central deputation in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- with effect from 21-10-2004 (F.N.) for a period of four years or till further orders whichever is earlier.

MANGE LAL
Dy. Secy.
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-110003, the 9th November 2004

No. E-16013(2)/15/99/Pers.-I/2934.—On repatriation to parent cadre, Shri Sudesh Kumar, IPS, (KL : 87), Deputy Inspector General, CISF relinquished the charge of the post of Deputy Inspector General, CISF Unit, HEC Ranchi in the Afternoon of 28th October, 2004. The officer has been sanctioned 60 (sixty) days Earned Leave w.e.f. 10.11.2004 to 08.01.2005 alongwith joining time, as per rule.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

DEPARTMENT OF COMMERCE
(SUPPLY DIVISION)
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPLIES &
DISPOSALS

New Delhi-110001, the 9th November 2004

No. A-32013/1/2002/A-6.—The President is pleased to appoint Shri J. K. Khanna, an officer of Senior Administrative Grade of Indian Inspection Service (Group 'A') to the Higher Administrative Grade of the Service, as Additional Director General, in the revised scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- from the date of taking over of charge i.e. from 08.11.2004 (A.N.).

2. The aforesaid appointment of Shri J. K. Khanna as Additional Director General is subject to final outcome of LPA'S 67/83, 68/83 & 69/83 filed by the U.O.I. and pending in Delhi High Court and W.P. Nos. 35/83, 3001/83 filed in Bombay High Court and transferred to Delhi High Court and other petitions if any, pending in any High Court/CAT's all relating to matters of seniority of the feeder grade.

Y. L. MAHAWAR
Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

KHAN MANTRALAYA
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 9th November 2004

No. 3242/B/A-19011(1-SKN)/04/19A.—The President is pleased to appoint Shri Sangram Keshari Nayak to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 6.9.2004 until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 3243/B/A-19011(1-RB)/04/19A.—The President is pleased to appoint Shri Ratnakar Bhaisal to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 28.9.2004 until further orders.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 3244/B/A-19011(1-PSD)/04/19A.—The President is pleased to appoint Shri Prashant Sahebrao Dhote to the post of Geologist (Jr.) in Geological Survey of India in the minimum of the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23.06.2004 until further orders.

The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of Caste Status furnished by the Competent Authority.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 3245/B/A-19012/(1-NNG)/02-19A.—Shri N. Nandhagopal has been appointed by the Director General, Geological Survey of India as an Assistant Geologist Gr.-I in the Geological Survey of India in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 05-08-2004 until further orders. The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of Caste status furnished by the competent authority.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

No. 3246/B/A-19012/(1-BP)/02-19A.—Shri Balaji P. has been appointed by the Director General, Geological Survey

of India as an Assistant Geologist Gr.-I in the Geological Survey of India in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 09-08-2004 until further orders. The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of Caste status furnished by the competent authority.

S. K. SINHA
Senior Administrative Officer
for Director General

The 10th November 2004

No. 2590A/A-32014/2-AG(I)/2000/19B.—The Director General, Geological Survey of India is pleased to approve the appointment of Sri Biswanath Naskar, STA (Geophy./Work Shop) on promotion to the post of Assistant Geophysicist (Instn.) Grade-I in the same department on pay according to rules in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- on regular basis with effect from 4-10-2004 (A.N.) until further orders.

S. DAS ROY
Administrative Officer
for Director General, GSI

MINISTRY OF COAL AND MINES
(DEPARTMENT OF MINES)
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 14th October 2004

CORRIGENDUM

No. A-31013(7)/79-Estt. A.—In continuation to the Notification of even number dated 12-10-2001 regarding confirmation of Shri W. K. Sontakke in the post of Senior Mining Geologist, the following amendment may please be made and published in the Gazette Notification :—

FOR : 1.4.1988

READ : 1.4.1990

All other entries will remain unaltered.

S. CHANDRAMOULI
Head of Office

SURVEY OF INDIA
SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehradun-248001, the 8th November 2004

No. C-344/1800(1).—The undermentioned Group 'C' Draftsman Division-I are promoted as Chief Draftsman, Group 'B' Post (Gazetted, Non-Ministerial) in Survey of India on regular basis in the Scale of Pay of Rs. 6,500-200-

10,500/- with effect from the date(s) as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri G. V. Appa Rao	13.09.2004
2.	Shri R. N. Thakur	30.08.2004
3.	Shri U. N. Dobhal	01.10.2004
4.	Shri Rudra Bahadur	27.08.2004
5.	Smt. K. D. Rathore	27.08.2004
6.	Shri Amrik Singh	01.09.2004
7.	Shri V. C. Sekaram	31.08.2004 (A.N.)
8.	Smt. Neela Sengupta	26.08.2004
9.	Km. Shibani Ghosh (PH)	27.08.2004
10.	Shri D. Majhi (ST)	21.09.2004
11.	Shri Shyam Singh (SC)	27.08.2004
12.	Shri D. P. Pawar (SC)	01.09.2004
13.	Shri S. P. Kumar	27.08.2004
14.	Shri Kulwant Singh	27.08.2004
15.	Shri J. S. Kukreja	27.08.2004
16.	Shri Satya Narain	27.08.2004
17.	Shri J. P. Dhyani	27.08.2004
18.	Shri Inder Swarup	25.10.2004

Dr. P. NAG
Surveyor General of India

No. C-366/718-A.—The undermentioned Office Superintendents are hereby promoted as Establishment & Accounts Officer (GCS Group 'B' Post) in Survey of India in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- on regular basis with effect from the dates as shown against their names :—

Sl. No.	Name	Date of Promotion
1.	Shri Tuphani Ram (SC)	01.09.2004
2.	Shri Khem Raj Sethi	01.11.2004

Dr. P. NAG
Surveyor General of India

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE &
COOPERATION)
DIRECTORATE OF PLANT PROTECTION,
QUARANTINE & STORAGE

NH-IV, Faridabad(121001, the 10th November 2004

No. 7-7/2004-Adm-I.—The Plant Protection Adviser to the Government of India has appointed Shri S. P. Singh to

the post of Plant Protection Officer (Entomology) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of 21.10.2004 on regular temporary basis in the Directorate until further orders.

MOHAN PRAKASH
Deputy Secy. &
Chief Administrative Officer

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 10th November 2004

No. PD/8(6)/2003/R-IV/1311.—The President is pleased to appoint the undermentioned individuals as Scientific Officer/Engineer Grade 'C' in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in Bhabha Atomic Research Centre with effect from the forenoon of September 1, 2004 except Shri Sudarsandhari Shibani Willson at Sr. No. 86 of the list whose date of appointment is 6th September, 2004 (F.N.), in a temporary capacity until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer
1.	Shri Ram Chandram
2.	Shri Raj Kumar
3.	Shri Chetlapalli Venkata Satyanarayana Raju
4.	Shri Bommisetty Surendra
5.	Shri Balaji Prasad Mandal
6.	Shri Alok Kumar Saxena
7.	Shri Rajesh Barnwal
8.	Shri Dibakar Goswami
9.	Shri Jitendra Vir Singh
10.	Shri Gaurav Varshney
11.	Shri Sankaran Sundar Rajan
12.	Shri Alok Kumar
13.	Shri Vikash Kumar Sriwastava
14.	Shri Abhijit Raha
15.	Shri Durgesh Om Prakash Mishra
16.	Kum. Aditi Chakrabarty
17.	Kum. Menka Tewani
18.	Shri Ramakrishna Elapanda
19.	Kum. Sangita Dhara
20.	Shri Gajjar Nikunj Bharat
21.	Shri A. Rex
22.	Shri Sudhanshu Saxena
23.	Kum. Arti Agrawal
24.	Shri Patel Tarunkumar Prafulbhai
25.	Shri P. Aravind Babu

26.	Shri Hemant Kumar Patni	67.	Kum. Jayashree Biswal
27.	Shri Partha Sarathi Maity	68.	Kum. Anita Gupta
28.	Kum. Rachna Agarwal	69.	Shri Krishan Kumar Pandey
29.	Kum. Chitra Seetharam	70.	Shri Anil Jain
30.	Shri Abhishek Mukherjee	71.	Kum. Chandrani Bhattacharya
31.	Shri Amit Prakash Srivastava	72.	Kum. Somali Phani
32.	Shri Upendra Kumar Singh Shekhawat	73.	Shri Malusare Mangesh Maruti
33.	Kum. Poulomi Mukherjee	74.	Shri Joshi Hiren Mukund Ray
34.	Shri Shankar Prasad Koiry	75.	Shri Sourabh Moitra
35.	Shri Dheeraj Jain	76.	Shri Abhijit Ravindra Tillu
36.	Shri Piyush Jain	77.	Shri Sandeep Pandurang Patil
37.	Shri Yogesh Kumar Gupta	78.	Shri Gurram Chenna Keshavulu
38.	Shri Gangadhar Huddar	79.	Shri N. Kasi Visweswara Rao
39.	Shri Prasad Pradip Karkhanis	80.	Shri Satendra Kumar
40.	Shri Amresh Misra	81.	Shri Devesh Chauhan
41.	Shri Rajiv Kumar Gupta	82.	Shri Avik Sil
42.	Shri Tariq Ahmad Mir	83.	Shri Partha Pratim Dhar
43.	Shri Raja Kishora Lenka	84.	Shri Vipin Gupta
44.	Shri Praveen Kumar Yadav	85.	Shri Prasad Rao Jangam
45.	Shri Pandian Pradeep Soundara	86.	Shri Sudarsandhari Shibani Willson
46.	Shri Rajan Kumar Singh	87.	Shri Kuldeep Sharma
47.	Shri Kshetramohan Sahoo	88.	Shri Keshav Baweja
48.	Kum. Lori Rastogi	89.	Shri Dev Ranjan Das
49.	Shri Somnath Ghosh	90.	Shri Nagaraj Alangi
50.	Shri Arup Kumar Pathak	91.	Shri Ajay Kumar
51.	Kum. Chhavi Agarwal	92.	Shri Vinay Prakash Pandey
52.	Shri Vimal Parakhiya	93.	Shri Ram Dayal
53.	Shri Amab Dasgupta	94.	Shri Tammana Sree Rama Chandra Murthy
54.	Shri Satyajit Dey	95.	Shri Mohit Kumar
55.	Shri Kumar Raja Macha	96.	Shri Alok Kumar Vishnoi
56.	Shri Vijay Kumar Muttavarapu	97.	Shri Akanshu Sharma
57.	Shri Praveen Joshi	98.	Shri Contractor Ankur Dipakbhai
58.	Shri Mohammad Ausaf	99.	Shri Subhankar Manna
59.	Shri Joshi Riteshkumar Ajitray		
60.	Shri Ansar Ahmad		
61.	Shri Sudhir Kumar		
62.	Shri Rajib Das		
63.	Kum. Argala Srivastava		
64.	Shri Satinath Ghosh		
65.	Shri Subhasish Guin		
66.	Shri Sachin Gajanan Mhatre		

Dr. G. D. PUNGLE
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 8th November 2004

No. 7/2(1)/2004-SUS/7764.—The President is pleased to appoint the following officers in the Directorate of Construction, Service & Estate Management of this

Department, on their promotion to the grade of Scientific Officer/F in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the date indicated against each in the same unit :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion
01.	Shri A. N. Krishna Kumar	01.08.2004 (F.N.)
02.	Shri M. P. Rege	01.08.2004 (F.N.)
03.	Shri V. Sudhendra	01.08.2004 (F.N.)
04.	Shri B. N. R. Prasanna	01.08.2004 (F.N.)
05.	Shri K. M. Das	01.08.2004 (F.N.)
06.	Shri K. Shivaprakasha	05.08.2004 (F.N.)

D. SURENDRAN
Under Secy.

(ATOMIC ENERGY REGULATORY BOARD)

Mumbai-400094, the 8th November 2004

No. AERB/Adm./II/10(I)/7951.—Chairman, Atomic Energy Regulatory Board appoints Shri Kavi Upreti, Scientific Assistant (C) (Scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-), of this Board to officiate as Scientific Officer (SB) (Scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/-) in the Atomic Energy Regulatory Board, on regular basis with effect from the forenoon of 1st August, 2004, until further orders.

N. S. NAIR
Adm. Officer-III

(DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT)

Mumbai-400094, the 5th November 2004

No. DCSE/I(123)2003-Rectt./Vol.-III/367.—Director, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy hereby appoints Shri V. R. Badade, Assistant Security Officer (B) as Security Officer in this Directorate in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- from the forenoon of 25.10.2004 until further orders.

A. K. V. NAIR
Administrative Officer-III

(ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH)

Hyderabad-500016, the 2nd November 2004

No. AMD-4/2/2004-Rectt./1609.—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers of the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy,

Hyderabad to the grade of Scientific Officer-F carrying the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- in the same Directorate in an officiating capacity on the dates shown against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Promotion to Grade/Scale of pay	Substantive post held	Date of Assumption of Charge
1	2	3	4	5	6
	S/Shri				
01.	Arjun Prasad	SO-E	SO-F	GRP-B (Scient.)	01.08.2004
02.	P. K. Kothari	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
03.	Padmanabha Sahoo	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
04.	Dr. A. Prabakara Rao	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
05.	S. V. S. Reddy	SO-E	SO-F	GRP-B (Scient.)	01.08.2004
06.	N. Satyanarayana	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
07.	V. Anil Kumar	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
08.	Dr. S. N. Chaturvedi	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
09.	Dr. M. Nagaraju	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
10.	Arun Kumar Kumar	SO-E	SO-F	GRP-B (Scient.)	01.08.2004
11.	Dr. P. K. Tarafdar	SO-E	SO-F	GRP-B (Scient.)	01.08.2004
12.	Dr. (Smt.) Jyotsna Chhabra	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
13.	Dr. (Smt.) Madhuparna Roy	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
14.	R. Mamallan	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
15.	V. V. Reddy	SO-E	SO-F	GRP-B (Scient.)	01.08.2004
16.	Dr. Mithilesh Sharma	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
17.	K. K. Pandey	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
18.	V. K. Shrivastava	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
19.	Anjani Kumar Verma	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
20.	Mayank Agarwal	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
21.	T. Desapati	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
22.	G. B. Rout	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004

1	2	3	4	5	6
23.	B. K. Tripathi	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
24.	Vivek Bist	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004
25.	Prakhar Kumar	SO-E	SO-F	GRP-A (Scient.)	01.08.2004

R. M. SINHA
Director

DEPARTMENT OF SPACE
(VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE)

Thiruvananthapuram-695022, the 2nd November 2004

No. VSSC/EST/F/1(17).—Director, Vikram Sarabhai Space Centre (VSSC) hereby appoints on promotion the following Technical Assistants-C as Scientist/Engineer-SB in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in Vikram Sarabhai Space Centre with effect from 01-10-2004 (F.N.), until further orders :—

Sl. No.	Name	Division
01.	Shri Sureshkumar R. S.	SDED
02.	Shri Kuncheria P. T.	RPP
03.	Smt. Sailaja Devi S. A.	QID

A. K. SOMASEKHARAN
Senior Administrative Officer

(MASTER CONTROL FACILITY)

Hassan-573201, the 4th November 2004

No. MCF/Admn./31/01.—Director, Master Control Facility, Department of Space, Hassan is pleased to appoint Shri P. Raghuchandra Bhat on promotion as 'Scientist/Engineer-SB' in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- in Master Control Facility, Hassan, in an officiating capacity with effect from July 01, 2004, and until further orders.

B. ANIL KUMAR
Asstt. Administrative Officer

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS
(DEPTT. OF COMPANY AFFAIRS)
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Aradhana Syntex Private Limited

Kanpur-208001, the 8th November 2004

No. 560(5)/LC/SES-10239/7654.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the name of M/s. Aradhana Syntex Private Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and the Company is dissolved.

M. R. GUPTA
Asstt. Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttaranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Indian Judicial Reports Private Limited

Jaipur, the 8th November 2004

No. ROC/560/3848/1511.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Indian Judicial Reports Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

V. K. KHOOBCHANDANI
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna-800001, the 29th October 2004

No. ROC/Pat./560/SES.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	7609	M/s. Patna Marketing Private Limited
2.	8658	M/s. Networthy Systems Private Limited
3.	9265	M/s. Classic Holdings Private Limited
4.	9268	M/s. Ashoka Holdings Private Limited
5.	4014	M/s. Regency Minerals Private Limited
6.	6527	M/s. BMC Granite Private Limited
7.	8184	M/s. Binson Engineering Private Limited
8.	1991	M/s. Deosaran Service Centre Private Limited
9.	3429	M/s. AAK Construction Company Private Limited

1	2	3
10.	6909	M/s. Excelsior Communications Private Limited
11.	0556	M/s. Granite Quarries Private Limited
12.	4185	M/s. Dadaji Wheels Private Limited
13.	5069	M/s. RBS Research and Training India Limited
14.	5053	M/s. D. K. Rai Exporters Private Limited
15.	2939	M/s. Educational Publishers and Distributors (India) Limited
16.	5425	M/s. Graphline Overseas Limited
17.	3058	M/s. Shree Anant Cattle Feed Private Limited
18.	2039	M/s. Vyapar Bharti Private Limited
19.	6449	M/s. Mahakal Housing & Leasing Finance Private Limited.

J. K. JOLLY
Registrar of Companies
Bihar & Jharkhand

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 22nd July 2004

No. 3196 to 38748/560(5).2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	7609	M/s. Venkullam Rubbers Limited
2.	7966	M/s. Anitha Exports Private Limited
3.	14318	M/s. Hotel Peninsula Private Limited
4.	14359	M/s. Rectitude Finance Private Limited
5.	14732	M/s. Raj Petrochem Private Limited
6.	15275	M/s. Presidency Chits Private Limited
7.	15989	M/s. Platinum Jubilee Printers Private Limited
8.	16182	M/s. Gopika Agro Products Private Limited
9.	18477	M/s. Ramkan Steels Private Limited
10.	20049	M/s. Dugar Exports Private Limited

1	2	3
11.	20214	M/s. Thangamani Textile Mills Private Limited
12.	22669	M/s. S.G.I. Pack Exports Private Limited
13.	22021	M/s. Forum For Legal Studies Private Limited
14.	22028	M/s. Tamilnadu Gems Limited
15.	22054	M/s. Vasavi Benefit Fund Limited
16.	22669	M/s. S.I.G. Pack Exports Private Limited
17.	23160	M/s. Sunkat Consultancy and Investments Private Limited
18.	24371	M/s. Chandran Finance Private Limited
19.	24626	M/s. Shreyas Housing Private Limited
20.	24968	M/s. Chari Engineering Consultants Private Limited
21.	25949	M/s. SJS Benefit Fund Private Limited
22.	28372	M/s. Thenukumari Benefit Fund Limited
23.	28454	M/s. Puliken Marine Products Limited
24.	29466	M/s. South India Metal Exports Private Limited
25.	30235	M/s. Bataji Tea & Spices Private Limited
26.	30397	M/s. Pari Finance and Investments Private Limited
27.	30839	M/s. V For U Benefit Fund Limited
28.	31980	M/s. United Land Marketing Company Private Limited
29.	33665	M/s. Jayeum Solai & Properties Private Limited
30.	33730	M/s. Mangadu Benefit Fund Limited
31.	34757	M/s. SRMC Software Limited
32.	36235	M/s. Sakethram Agro Farms Private Limited
33.	36375	M/s. RSR Benefit Fund Limited
34.	36711	M/s. Sri Datta Power Systems Private Limited
35.	37380	M/s. Mars Minrock Private Limited
36.	38748	M/s. Saturn Softwares & Exports Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 22nd July 2004

No. 18048 to 43112/560(5).2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	18048	M/s. Asha Agribusiness Private Limited
2.	18329	M/s. Vel Hydraulic Machines Private Limited
3.	18989	M/s. Ambal Polymers Private Limited
4.	21272	M/s. AVM Housing Private Limited
5.	26944	M/s. Abhaya Hastham Finance & Investments Private Limited
6.	28047	M/s. Kongunadu Benefit Fund Limited
7.	29965	M/s. Sai Leo Benefit Fund Private Limited
8.	30841	M/s. Glaciers Exports Private Limited
9.	31255	M/s. Prime City Finance & Investment Limited
10.	32419	M/s. Symtec Auto Control Private Limited
11.	32585	M/s. Lateral Exports Private Limited
12.	33586	M/s. Rainbow Shelters Private Limited
13.	34463	M/s. Southern Ayurvedic Formulations and Extractions Private Limited
14.	35967	M/s. Sri Venkatesh Capital & Management Services Limited
15.	37379	M/s. Forte Computers Private Limited
16.	36214	M/s. Malghosh Investments Limited
17.	37031	M/s. Integrated Organ Transplant Institute Private Limited
18.	37793	M/s. Goldmine Prints & Designs Private Limited
19.	40092	M/s. Sri Devanatha Properties Private Limited

1	2	3
20.	41411	M/s. Kumbha Consortium Private Limited
21.	41880	M/s. Technet Computer Services Private Limited
22.	41903	M/s. Rasi Bluemetals Private Limited
23.	42423	M/s. K. U. Builders Private Limited
24.	42752	M/s. International Ocean Movers Private Limited
25.	43112	M/s. T.V.R. Exports Private Limited

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamilnadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 27th July 2004

No. 10940 to 47864/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	10940	M/s. Skanda Finance Company Private Limited
2.	11213	M/s. Senthur Agro Farms Private Limited
3.	12127	M/s. Tamilnadu Marinplast Private Limited
4.	13499	M/s. Remy Estates Private Limited
5.	15607	M/s. Balamurugan Finance & Investments Pvt. Ltd.
6.	15863	M/s. Chem Paints & Thinners Private Limited
7.	18049	M/s. Omkar Agri Business Private Limited
8.	19099	M/s. Chalukiya Finance Limited
9.	20367	M/s. Vishnu Chakra Gears Private Limited
10.	23525	M/s. Nucleus Finance and Investments Limited
11.	26282	M/s. High Way Benefit Fund Limited
12.	27083	M/s. Manali Financial Holdings Private Limited

1	2	3
13.	28261	M/s. Alfa Rubber Components Private Limited
14.	28332	M/s. Catadyn Mineral Water Private Limited
15.	30440	M/s. IBEX Valley Resorts & Hotels Limited
16.	32607	M/s. Lokesh Paper Mills Limited
17.	31310	M/s. Aarushi Securities Private Limited
18.	32816	M/s. Travel Arcade India Private Limited
19.	33156	M/s. Chalukiya Animal Farms Private Limited
20.	33157	M/s. Chalukiya Plantations Private Limited
21.	34400	M/s. Sadachi Ambalava Multi Agro Company Limited
22.	35076	M/s. Phi-Alpha Investments Private Limited
23.	36615	M/s. Nanjil Finance Private Limited
24.	36720	M/s. SPIC Gelman Sciences India Limited
25.	37193	M/s. Composite Management & Financial Services Private Limited
26.	38948	M/s. Shri Angannan Hire Purchase Limited
27.	39299	M/s. Thannayiramoorthy Chit Funds Private Limited
28.	40780	M/s. Chennai Plant Engineers Private Limited
29.	40890	M/s. UFC Sincon (India) Private Limited
30.	42523	M/s. GAVS Properties Private Limited
31.	45473	M/s. Marblejar India Private Limited
32.	46716	M/s. Life Guidance Herbal Private Limited
33.	47864	M/s. Periyannayagi Trading Company Private Limited

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 27th July 2004

No. 7121 to 46003/560(5)/2004.—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies

Act, 1956 that the names of the following Companies have
this day been struck off from the Register and the said
Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	7121	M/s. Computer Forms Private Limited
2.	21379	M/s. Ardra Marketing Private Limited
3.	23019	M/s. Ramaniyam Hotels Limited
4.	24189	M/s. Saga Mercantile Private Limited
5.	26122	M/s. Briggs Equipments Private Limited
6.	25678	M/s. Island Aqua Exports Private Limited
7.	27095	M/s. Ephesus Systems & Solutions Private Limited
8.	27123	M/s. Flagi Leasing and Finance Private Limited
9.	27972	M/s. Pam Jharves Agro Specialities Private Limited
10.	28218	M/s. Shreyance Securities Limited
11.	29205	M/s. Manasvini Investments & Securities Private Limited
12.	29325	M/s. Parackal Biologicals Private Limited
13.	31927	M/s. S. R. Credits & Investments Private Limited
14.	32873	M/s. Thayagam Benefit Fund Limited
15.	33611	M/s. SPS Promoters Limited
16.	35137	M/s. Goldwin Trade Links Private Limited
17.	35793	M/s. Ajuntha Properties (India) Private Limited
18.	35794	M/s. Ranchana Structurals Private Limited
19.	36257	M/s. A. H. K. Finance Private Limited
20.	36770	M/s. Albis Engineering Company Private Limited
21.	36839	M/s. Sherdan Container Haulage Private Limited
22.	38410	M/s. SPIC Foods and Flavours Limited

1	2	3	1	2	3
23.	39006	M/s. Palukai Krishna Benefit Fund Limited	7.	16696	M/s. Beejay Marketing Services Private Limited
24.	39101	M/s. Vector Software Private Limited	8.	16953	M/s. Alagappa Nagar Permanent Fund Limited
25.	39186	M/s. Savera Nourishments Private Limited	9.	17334	M/s. Sri Muthalamman Finance Private Limited
26.	39854	M/s. TVS Shops Private Limited	10.	21459	M/s. Padma Silicates Private Limited
27.	40514	M/s. Kabab Fashions Private Limited	11.	22152	M/s. Madras Navabaatham Benefit Fund Limited
28.	43002	M/s. Durrant Leader Search and Solutions Private Limited	12.	22392	M/s. Akaria Builders Private Limited
29.	45357	M/s. Software Pathfinders Private Limited	13.	22591	M/s. Vaiodheeswaran Chit Funds Limited
30.	36003	M/s. Zeus Data Commerce Private Limited	14.	24260	M/s. Esemar Marketing Private Limited

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 27th July 2004

No. 6667 to 34461/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	6667	M/s. The Karur Textile Manufacturers Exporters Association Limited
2.	9931	M/s. Bachi Shoes & Leather Products Private Limited
3.	11855	M/s. Bond Chemicals Private Limited
4.	14893	M/s. Modern Roller Flour Mills Private Limited
5.	15314	M/s. M.B. Venners & Plywood Private Limited
6.	16350	M/s. HIQU Engineering Private Limited

15.	24589	M/s. M. S. Housing Private Limited
16.	24685	M/s. Vijaya Video Private Limited
17.	26712	M/s. Meera Benefit Fund (Tuticorin) Limited
18.	26747	M/s. Anjaneya Consultants Private Limited
19.	27106	M/s. Sri KVN Chits Private Limited
20.	28220	M/s. Sasee Spinners Private Limited
21.	29493	M/s. Britto Exports Private Limited
22.	30209	M/s. Evergreen Financials Private Limited
23.	31820	M/s. Kengs Tele Services Private Limited
24.	31768	M/s. Headline Services Limited
25.	32074	M/s. Nazareth Farms & Orchards Private Limited
26.	33048	M/s. Shanas Dental Clinic Private Limited
27.	33297	M/s. Highfly Financial Services Private Limited
28.	34258	M/s. Sasiva Consultancy Private Limited
29.	34401	M/s. Network Shipping India Private Limited
30.	34461	M/s. Jeta Hitech Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 28th July 2004

No. 854 to 49106/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	854	M/s. Hindustan Investment and Financial Trust Limited
2.	7946	M/s. Nova Computers Private Limited
3.	9072	M/s. Rayala Farms and Allied Industries Private Limited
4.	10154	M/s. Paragaon Flexible Tubes Limited
5.	10207	M/s. Filon Engineers Private Limited
6.	10415	M/s. Subi Tools & Trades Private Limited
7.	12961	M/s. Srinidhi Farms Private Limited
8.	14806	M/s. Chandra Macheines Private Limited
9.	18592	M/s. Sim Engineering Plastics Private Limited
10.	19155	M/s. Ribtec Fibres (India) Private Limited
11.	19815	M/s. MHT Investments Private Limited
12.	31182	M/s. Thiruvannamalai Benefit Fund Limited
13.	32974	M/s. Subhodaya Builders Private Limited
14.	34482	M/s. ECO Housing Private Limited
15.	35461	M/s. Guardian Benefit Fund Limited
16.	38696	M/s. Madras Muthoot Benefit Fund Limited
17.	40175	M/s. Info-Matics Technonet Solutions Private Limited
18.	40256	M/s. Mantra Consultants Private Limited
19.	40625	M/s. Kayathur Investments Private Limited

1	2	3
20.	40946	M/s. Hiquial Investments Private Limited
21.	41071	M/s. Clarity Power Systems Private Limited
22.	41406	M/s. Dynarad Tours and Travels Private Limited
23.	41596	M/s. Somat Finance Limited
24.	41924	M/s. Wondertech Software Services Private Limited
25.	43651	M/s. Metro Cards Private Limited
26.	45414	M/s. Aero Software Solution Limited
27.	46020	M/s. Goodrich Garments Private Limited
28.	47197	M/s. Edubridge Solutions Private Limited
29.	48802	M/s. Murugaraj Impex Private Limited
30.	49106	M/s. Metro Speed Cool Services Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 28th July 2004

No. 11281 to 46222/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	11281	M/s. Sathya Rexines Private Limited
2.	11352	M/s. Dyetex India Private Limited
3.	13530	M/s. Electro Process Industrial Chemicals Private Limited
4.	15967	M/s. Marvin Shoe Private Limited
5.	22430	M/s. J. P. Tyres Services (Chennai) Private Limited
6.	25569	M/s. R. R. Aqua Agro Ventures Private Limited
7.	26256	M/s. Results Engineering & Trading (India) Private Limited

1	2	3
8.	27521	M/s. Sujee Auto Limited
9.	27691	M/s. Subiksha Investments and Credits Private Limited
10.	28385	M/s. Muushae Marine Foods Private Limited
11.	28765	M/s. Springrose Finance Limited
12.	28829	M/s. Novel Systems Limited
13.	30999	M/s. Geo Leasing & Finance Limited
14.	31527	M/s. United Green Farm Lands Private Limited
15.	34798	M/s. Sahridaya Investments Private Limited
16.	34946	M/s. Leemson Constructions Private Limited
17.	35663	M/s. Dharani Travels Private Limited
18.	37299	M/s. Rane Auto Components (Madras) Private Limited
19.	37505	M/s. Rajshree Engineering Private Limited
20.	38034	M/s. Samyuktha Financial Investments Limited
21.	38695	M/s. Masterminds Software Solutions Private Limited
22.	39096	M/s. Nila Marketing Private Limited
23.	41373	M/s. Antony Finance Private Limited
24.	42574	M/s. Task Civil Engineering Services (Chennai) Private Limited
25.	43168	M/s. Square K. Technologies Private Limited
26.	43819	M/s. Inquisitive Technologies Private Limited
27.	45245	M/s. Vibration-Engineers Com. Private Limited
28.	46222	M/s. Telecom Zoom Com. Private Limited
29.	43968	M/s. S. S. Mehta Safe Vaults Private Limited
30.	35806	M/s. Southern Trading (Madras) Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 28th July 2004

No. 13718 to 48066/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	13718	M/s. Happy Fisheries Private Limited
2.	14931	M/s. Foresight Exports Private Limited
3.	16913	M/s. Top Chlorates Private Limited
4.	19133	M/s. Vertex Exports and Imports Private Limited
5.	19198	M/s. Pallava Hire Purchase Company Private Limited
6.	21181	M/s. Benchmark Interiors Private Limited
7.	22664	M/s. Manissha Information Processing Systems Private Limited
8.	23098	M/s. Red Hills Benefit Fund Limited
9.	13569	M/s. NRI Venture Capital Limited
10.	23119	M/s. Thirumalayan Agro Private Limited
11.	23735	M/s. Unique Vessels Private Limited
12.	23783	M/s. Super Proteins Private Limited
13.	24079	M/s. Infinite Chemicals Private Limited
14.	26526	M/s. Sattur Sri Balaji Cheit Funds Private Limited
15.	27082	M/s. Manali Professional Securities Private Limited
16.	28796	M/s. Quality Hatcheries Private Limited
17.	29265	M/s. Green Valley Research Laboratories Private Limited
18.	35360	M/s. Sri Aravinda Chits Private Limited
19.	44811	M/s. Netransmit Solutions (India) Private Limited
20.	37725	M/s. TTT Mills Private Limited

1	2	3
21.	38614	M/s. Vinayak Silicates Private Limited
22.	38768	M/s. Emm Ess Jay Silicate Private Limited
23.	38946	M/s. Sree Thirumal Systems (India) Private Limited
24.	38962	M/s. Chennai Protech Engineering Private Limited
25.	41155	M/s. Alliance Logistics Private Limited
26.	41698	M/s. G. N. Instrumentation & Services Private Limited
27.	41791	M/s. First Choice Ellar Sarees & Accessories Private Limited
28.	42503	M/s. Dilmun Investments Services Private Limited
29.	47931	M/s. Rajam Software Private Limited
30.	48066	M/s. Accreditt Associates Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 28th July 2004

No. 6731 to 48056/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	6731	M/s. Sivakami Finance Private Limited
2.	11985	M/s. M.S. Sillers & Distributors Private Limited
3.	14197	M/s. Sandilya Consultants Private Limited
4.	15922	M/s. Milano Shoes Private Limited
5.	17045	M/s. Chola Granite Private Limited
6.	19068	M/s. K. D. Rubber Products Private Limited

1	2	3
7.	19410	M/s. Fireside Systems India Private Limited
8.	21165	M/s. Magna Hearing Systems Private Limited
9.	22343	M/s. Thiruvonam Investments Private Limited
10.	23280	M/s. Shree Kathayee Amman Agencies Private Limited
11.	25164	M/s. Veterans Hospitals Private Limited
12.	28049	M/s. Darla Securities Private Limited
13.	29145	M/s. M.R.R. Securities Private Limited
14.	29380	M/s. Kabra Securities Private Limited
15.	29605	M/s. Thirupanandal Benefit Fund Limited
16.	29625	M/s. Reddy Cars and Finance Private Limited
17.	30377	M/s. Sathur Sri Rajeswari Finance & Leasing Private Limited
18.	31435	M/s. Jay Kay Finvest Limited
19.	31600	M/s. Kaygee Securities Private Limited
20.	31787	M/s. Rainbow Resorts & Farmlands Private Limited
21.	31939	M/s. Abhinav Benefit Fund Private Limited
22.	33830	M/s. Vijay Chandra Finance Company Limited
23.	34173	M/s. Green Country Finance Limited
24.	35507	M/s. Arvind Farm House Private Limited
25.	36407	M/s. Chennai Underwater World Limited
26.	38966	M/s. Korati Unnamalaiamman Chit Fund Limited
27.	38975	M/s. Chimera Estates Private Limited
28.	40111	M/s. Blue Water Engineering Private Limited
29.	40911	M/s. Sri Vardharaja Salt Private Limited

1	2	3
30.	43193	M/s. Ton Traders Limited
31.	46081	M/s. Rebecca Estates Private Limited
32.	46630	M/s. Shri Chima Metal Private Limited
33.	46737	M/s. SVS Agro Refineries Private Limited
34.	47230	M/s. Swayam Technologies Private Limited
35.	47984	M/s. Excellent Monetary & Management Associates Private Limited
36.	48190	M/s. R. K. Diamonds & Gold Private Limited
37.	48056	M/s. Navin Multilevel Marketing Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 28th July 2004

No. 993 to 43556/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off from the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	993	M/s. The Industrial Chemical Works (Vellore) Private Limited
2.	4566	M/s. South Madras Real Estate Private Limited
3.	6324	M/s. Fine Measure Instruments Limited
4.	6434	M/s. Tamilnadu International Electronics Limited
5.	6739	M/s. Manickavasagam Finance Private Limited
6.	7189	M/s. Asia Carbon Limited
7.	9969	M/s. Apollo Rexines Private Limited
8.	11350	M/s. Little Hut Investments Company Limited

1	2	3
9.	11431	M/s. Pipalia Finance Private Limited
10.	16031	M/s. Guru Sri Shanthi Production Private Limited
11.	16394	M/s. Esskayee Marketing Company Private Limited
12.	16954	M/s. Thiru Investments & Finance Private Limited
13.	18424	M/s. MHT Airconditioning Engineers Private Limited
14.	19624	M/s. ABL Investments Private Limited
15.	20564	M/s. Alpha Office Systems Private Limited
16.	25970	M/s. Chinmayangar Benefit Fund Limited
17.	26872	M/s. Madras Industrial Park Limited
18.	28086	M/s. Kamsun Hydraulics Private Limited
19.	28238	M/s. SRV Hospital Private Limited
20.	29952	M/s. Bohra Finlease & Securities Limited
21.	30574	M/s. Ocean Crops Private Limited
22.	30881	M/s. Trishna Investments & Securities Private Limited
23.	31354	M/s. Singah Property Development Private Limited
24.	31766	M/s. Feena Agro Products Limited
25.	32322	M/s. Aadhu Investments Private Limited
26.	32573	M/s. Jayalakshmi Constructions Private Limited
27.	32623	M/s. Mugavai Benefit Fund Limited
28.	32662	M/s. Swastik Benefit Fund Limited
29.	33446	M/s. Hofintech Logistics & Software Services Limited
30.	33658	M/s. ABC Design House Private Limited
31.	35084	M/s. Kaisan Finance & Investments Private Limited
32.	35315	M/s. Vishranthi Builders Private Limited
33.	36187	M/s. Thar Petro Gold Refinery Limited

1	2	3
34.	38252	M/s. Benpal Marketing Private Limited
35.	38322	M/s. Galaxy Management Consultants (Chennai) Private Limited
36.	38505	M/s. Stone Age Engineers India Private Limited
37.	40573	M/s. Tamilnadu Petrochem Park Limited
38.	41052	M/s. Inextenso Corporate Advisors & Technologies Private Limited
39.	43508	M/s. Tas Technologies Private Limited
40.	43556	M/s. Sri Brindaavan Board Mills Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 28th July 2004

No. 5439 to 47957/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	5439	M/s. Sri Vetrivel Chit Fund Private Limited
2.	11798	M/s. S.V.M. & Sons Financiers Private Limited
3.	14825	M/s. Vengaivasal Farms Private Limited
4.	18149	M/s. Mary and Mary Exports Private Limited
5.	18346	M/s. Pretty Granites Private Limited
6.	20549	M/s. SVM Exports Private Limited
7.	27757	M/s. Prosperity Benefit Fund Limited
8.	28574	M/s. Athreya Shares and Securities Private Limited
9.	29961	M/s. T.K.V. Grind Tech Private Limited

1	2	3
10.	30321	M/s. Kothari Housing Limited
11.	30569	M/s. Tebma Farms Limited
12.	31520	M/s. Pride Securities Private Limited
13.	33905	M/s. Tanbac Agro Farms and Exports Private Limited
14.	34479	M/s. S.S.R. Investments Private Limited
15.	34555	M/s. Quantum Professional Management Services Private Limited
16.	34779	M/s. Vox Foods Private Limited
17.	35000	M/s. T. Y. Lin Consultants (India) Private Limited
18.	35783	M/s. Avenir Exports Private Limited
19.	37450	M/s. Mamaham Chit Limited
20.	43532	M/s. World Wide Corporate Connections Private Limited
21.	44384	M/s. TVS Venture Fund Private Limited
22.	44799	M/s. GSS Info-Sys Private Limited
23.	45065	M/s. Universal Entrepreneurs and Traders Private Limited
24.	47957	M/s. Vidyaportal.Net Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 29th July 2004

No. 29719 to 50115/560(5)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company
1	2	3
1.	29719	M/s. Flow Control Engineers Private Limited
2.	29723	M/s. Honey Comb Farms Private Limited

1	2	3
3.	29930	M/s. Athavan Farms and Finance Investments Private Limited
4.	31000	M/s. Priya Spinners Private Limited
5.	32904	M/s. Woodpecker Leather Private Limited
6.	33354	M/s. Pranav Agency Private Limited
7.	33875	M/s. Srimangala Associates Private Limited
8.	35921	M/s. Skycabs Private Limited
9.	38059	M/s. Kisshal Cylinders Private Limited
10.	40176	M/s. Nagapattinam Enterprises Private Limited
11.	40271	M/s. Wellworth Impex Limited
12.	42252	M/s. Petronet CTM Limited
13.	45282	M/s. J.G. Advanced Software Technologies Limited
14.	45619	M/s. AAA Shares Private Limited
15.	44925	M/s. Mahindra Infotech Solutions Limited
16.	45772	M/s. Vitima Software (India) Private Limited
17.	47493	M/s. Blue Bird Audio Private Limited
18.	48881	M/s. Lakshmi Lockers Private Limited
19.	49077	M/s. P.G.P. Oils Private Limited
20.	50115	M/s. Ranads Scholars Ventures Private Limited.

V. SWAMIDASON
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 8th October 2004

No. 8348 to 45705/560(3)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies, unless

cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1	2	3
1.	8348	M/s. Somalinga Mills Limited
2.	13033	M/s. Bright Ocean Foods Limited
3.	20637	M/s. Sundaram Two-wheelers Private Limited
4.	21077	M/s. Marcopolo Textile Exports Private Limited
5.	22628	M/s. Integrated Benefit Fund Limited
6.	22898	M/s. NEPC LM Wind Energy Limited
7.	22753	M/s. Viswas Technologies Private Limited
8.	25692	M/s. Shyajan Exports Private Limited
9.	26113	M/s. Witco (Coimbatore) Private Limited
10.	27071	M/s. Harivayu Benefit Fund Limited
11.	27723	M/s. B. C. Marine Electronics and Allied Services Private Limited
12.	27827	M/s. Trichy Sri Aditya Chits Private Limited
13.	27923	M/s. Pam Jharves Estates Private Limited
14.	31258	M/s. Margam Financial Consultancy Private Limited
15.	33738	M/s. Mindscapes Advertising and Marketing Consultancy Private Limited
16.	29772	M/s. Sarvamangala Benefit Fund Limited
17.	12533	M/s. Oriental Building and Land Development Company Limited
18.	29726	M/s. Square Aqua Farms Private Limited
19.	29372	M/s. Tanjore Securities Limited
20.	29746	M/s. Rishikesh Chit Fund Private Limited
21.	35728	M/s. Sain Properties Private Limited
22.	27807	M/s. Parani Engineering Private Limited
23.	27801	M/s. Vibaa Financial and Secretarial Services Private Limited

1	2	3
24.	27185	M/s. Phenoplast Madras Private Limited
25.	26582	M/s. Sai Maruthi Benefit Fund Limited
26.	20080	M/s. D.P.S. Finance Limited
27.	32587	M/s. Maxpro Agriculture Marketing Private Limited
28.	31222	M/s. Jagdish Power Ignition Systems Private Limited
29.	29935	M/s. Sugans Benefit Fund Limited
30.	32394	M/s. Jayakrishna Chits Private Limited
31.	25944	M/s. Balaji Domestic Gases (Madras) Private Limited
32.	32102	M/s. South India Goats Private Limited
33.	24392	M/s. Southern Metro TV Private Limited
34.	10370	M/s. Pradik Investments Private Limited
35.	45705	M/s. Mattcon Sales Private Limited

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Chennai, the 13th October 2004

No. 6005 to 39747/560(3)/2004.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies, unless

cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Companies will be dissolved :—

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	6005	M/s. V. K. Traders Private Limited
2.	10897	M/s. Espee Sugars Limited
3.	12316	M/s. Barrin Exports Private Limited
4.	12450	M/s. Aartee Hotels Private Limited
5.	13415	M/s. Azhagar Polypack Private Limited
6.	13995	M/s. Vaishnavi Expo Private Limited
7.	19287	M/s. Deblines and Agencies (South India) Private Limited
8.	19358	M/s. Thevanger (Madras) Finance Private Limited
9.	21140	M/s. Zenith Publications Private Limited
10.	23132	M/s. Metropolis Business Credits (Madras) Private Limited
11.	24262	M/s. Smart Money Services Private Limited
12.	21912	M/s. Wriston Investments Private Limited
13.	24549	M/s. Goldwire Giltedge Investments Private Limited
14.	26992	M/s. T.V.T. Benefit Fund Limited
15.	29138	M/s. Platinum Elastofil Private Limited
16.	31921	M/s. Por Kodi Benefit Fund Limited
17.	32433	M/s. Srushti Financial and Security Services Limited
18.	38754	M/s. Sai Srushti Cyber Systems & Consulting Private Limited
19.	39747	M/s. Avinashi Catfarm Private Limited.

S. MEENAKSHI
Asstt. Registrar of Companies
Tamil Nadu

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2004

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD, AND
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2004